

GK Digest : July 2016

[www.BankExamsToday.Com](http://www.BankExamsToday.Com)

1/7/2016

Ramandeep Singh

## अंतर्राष्ट्रीय

विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस मनाया गया

विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस मनाया गया महासागरों में गिरने वाले प्लास्टिक प्रदूषण के कारण महासागर धीरे-धीरे अपशिष्ट होते जा रहे हैं। इससे समुद्री जीवों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- जिसका विषय था - स्वस्थ महासागर, स्वस्थ ग्रह।

भारत वैश्विक शांति सूचकांक में 141वें स्थान पर

भारत को 2016 ग्लोबल पीस इंडेक्स (जीपीआई) में बुरुंडी, सर्बिया और बुर्किना फासो जैसे देशों से भी पीछे 141 वां स्थान दिया गया है।

- अर्थशास्त्र और शांति के लिए वैश्विक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट (IEP) द्वारा संकलित इंडेक्स में, कुल 163 देशों में सीरिया सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा।
- आइसलैंड को दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में स्थान दिया गया जबकि डेनमार्क और ऑस्ट्रिया क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे।

भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खपत करने वाला देश

बीपी स्टेटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी के अनुसार जापान को पछाड़ कर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश बन चुका है।

- भारत में प्रतिदिन तेल खपत 4.1 मिलियन बैरल है। तेल खपत के लिहाज से अमेरिका (19.39 मिलियन बैरल प्रतिदिन) पहले जबकि चीन (11.96 मिलियन बैरल प्रतिदिन) दूसरे स्थान पर है।
- साल 2015 में विश्व तेल खपत में भारत का हिस्सा 4.5 प्रतिशत रहा।

पाकिस्तान मैलवेयर संक्रमण सूचकांक 2016 में सबसे ऊपर

पाकिस्तान एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 19 देशों के मैलवेयर संक्रमण सूचकांक (MII) 2016 की सूची में सबसे ऊपर है

- एशिया-प्रशांत क्षेत्र का सूचकांक प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किया गया, जिसमें भारत को 8वें स्थान पर रखा गया है।
- सूचकांक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण मैलवेयर हमलों को पहचानता है।

नाटो ने अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास एनाकोडा-16 पोलैंड में आरंभ किया

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) सदस्यों एवं साथी राष्ट्रों ने विशालतम संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास एनाकोंडा-16 पोलैंड में आरंभ किया है।

- यह नाटो के सैन्य कार्यक्रम का ही एक भाग है, इसे नाटो द्वारा वारसा में आयोजित किये जाने वाले शिखर सम्मेलन से कुछ समय पहले कराया जा रहा है। इसमें नाटो के सैनिक एवं सैन्य साजो-सामान बाल्टिक क्षेत्र में मौजूद रहेगा।
- यह अभ्यास ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब मध्य एवं पूर्वी यूरोप के देश रूस से सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं।

### मालाबार अभ्यास – 2016 की शुरुआत

भारत की 'एकट ईस्ट पॉलिसी' के अनुरूप और भारत, अमेरिका तथा जापान के बीच बढ़ते हुए संबंधों के कारण भारतीय नौसेना के जहाज सतपुडा, सहयाद्रि, शक्ति और किर्च के साथ यूएसएन और जापानी समुद्री सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेएमएसडीएफ) के साथ एक्स-मालाबार – 16 के 20 वें संस्करण में भाग ले रहे हैं।

- भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना 1992 से मालाबार नामक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास नियमित तौर पर कर रहे हैं। 2007 के बाद से मालाबार अभ्यास वैकल्पिक रूप से भारत और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है।
- अभ्यास के 19 वें संस्करण, एक्स- मालाबार 16, चेन्नई तट से दूर किया गया था जिसमें जेएमएसडीएफ ने भी भागीदारी की थी।

### एम्मार एमजीएफ के प्रबंध निदेशक श्रवण गुप्ता का इस्तीफा

रीयल्टी कंपनी एम्मार एमजीएफ के कार्यकारी वाइस चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक श्रवण गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दो संयुक्त उद्यम भागीदारों दुबई की एम्मार प्रापर्टीज तथा भारत की एमजीएफ डेवलपमेंट ने उससे अलग होने तथा कंपनी के कारोबार का पुनर्गठन करने का फैसला किया है जिसके बाद गुप्ता ने इस्तीफा दिया है।

- पुनर्गठन के तहत दुबई की रीयल्टी क्षेत्र की कंपनी एम्मार कंपनी की मौजूदा परियोजनाओं का नियंत्रण अपने हाथ में लेगी जिससे इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।
- वह कंपनी के निदेशक बने रहेंगे। कंपनी ने कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी संजय मल्होत्रा को कार्यवाहक सीईओ नियुक्त किया है।

### पेद्रो पाब्लो कुक्ज़िन्सकी ने पेरू का राष्ट्रपति चुनाव जीता

पेद्रो पाब्लो कुक्ज़िन्सकी ने अपने प्रतिद्वंदी केईको फुजीमोरी को हराकर पेरू के राष्ट्रपति का चुनाव जीता।

- चुनावी प्रक्रिया के राष्ट्रीय कार्यालय ने यह घोषणा की कि पेरू के राजनैतिक संगठन पेरूआनोस पोर एल कम्बियो को 50.12 प्रतिशत वोटिंग के साथ बहुमत प्राप्त हुआ।

- फुजीमोरी को 8539036 एवं पेद्रो पाब्लो को 8580474 मत प्राप्त हुए।

### 12 जून: बालश्रम निषेध दिवस

बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जगरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है।

- वर्ष 2016 में इसकी थीम: 'आपूर्ति श्रृंखला में बाल श्रम को समाप्त करो –यह सबका काम है'।

### राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तीन देशों की यात्रा पर

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तीन अफ्रीकी देशों- घाना, आइवरी कोस्ट और नामीबिया के छह दिवसीय दौरे पर हैं।

- किसी भारतीय राष्ट्रपति की घाना और आइवरी कोस्ट की यह पहली यात्रा है जबकि नामीबिया में किसी राष्ट्रपति की यात्रा दो दशक बाद हो रही है।
- मुखर्जी हालांकि अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों में गए हैं, लेकिन अपने लंबे राजनीतिक करियर में वे पहली बार इन देशों के दौरे पर जा रहे हैं।

### वनों की कटाई रोकने के लिए नॉर्वे पहला देश

वनों की कटाई रोकने के लिए नॉर्वे पहला देश बन गया है। नॉर्वे देश की प्रतिज्ञा के अनुसार, नॉर्वे के सांसदों ने भी यह प्रतिवद्ध (कमिटमेंट) किया है की देश की सार्वजनिक खरीद नीति को वनों की कटाई रोकने लायक बनाया जायेगा।

- यह कदम नार्वे की संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर नार्वे सरकार द्वारा लिया गया है।

### अमेरिका में वीआईपी भारतीयों को मिलेगी खास छूट

अब अमेरिका जाने वाले वीआईपी भारतीयों को सुरक्षा जांच के कड़े मापदंडों से नहीं गुजरना पड़ेगा। अमेरिका अब भारतीयों को विशेष दर्जा देने पर सहमत हो गया है। इसके तहत प्रमुख भारतीयों को इमिग्रेशन के दौरान विशेष बूथ पर जाना होगा।

- जुलाई में गृहमंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में अमेरिका में होने वाली होमलैंड सिक््योरिटी की वार्ता के दौरान इस पर मुहर लग जाएगी। इसके साथ ही अमेरिका और भारत अब आतंकियों की रियल टाइम सूचना का आदान-प्रदान भी शुरू करने जा रहे हैं।

### भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में 41वें स्थान पर

भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में अपनी स्थिति में सुधार करते हुए 41वें स्थान पर पहुंच गया है।

- सूची में हांगकांग, अमेरिका को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान पर आ गया है।

### चाड के पूर्व राष्ट्रपति हिसेन हब्रे को उम्रकैद

अफ्रीकी देश चाड के पूर्व तानाशाह हिसेन हब्रे को वॉर क्राइम के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने हब्रे को रेप, यौन उत्पीड़न और 40,000 हत्याओं का आदेश देने के दोषी ठहराया। पूर्व राष्ट्रपति हिसेन हब्रे को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाया गया।

- सेनेगल की राजधानी डकार में अफ्रीकी संघ समर्थित एक अदालत ने ये फैसला सुनाया। उन्हें फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
- हिसेन हब्रे 1982 से 1990 तक चाड के शासक रहे। हब्रे पर आरोप है कि उन्होंने आठ साल के शासन काल में 40 हजार लोगों का कत्ल करवाया।

### आम लोगों के लिए खुली दुनिया की सबसे लंबी और गहरी रेल टनल

सालों के इंतजार के बाद पूरी हुई दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग का आखिरकार स्विट्जरलैंड में उद्घाटन हो गया।

- 57 किमी लंबी ये गोटहार्ड बेस सुरंग स्विट्जरलैंड के यूरी के सेंट्रल कैंटन के अस्टफेल्ड से शुरू होकर सदर्न टिसिनो कैंटन के बोडियो तक चलेगी।
- सात दशक पहले बनी इस सुरंग का निर्माण 2400 मजदूरों ने किया था जिसका कुल खर्च 12 बिलियन डॉलर था। इस सुरंग में दिसंबर तक सर्विसेस शुरू हो जाएंगी।

### भारत ने नेपाल में गरीब लड़कियों को दो हजार साइकिलें की गिफ्ट

भारत ने नेपाल में गरीब दलित लड़कियों को स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करने और उनके बीच में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए उन्हें 2,000 साइकिलें उपहार में दी हैं।

- साइकिल तोहफे में देने के कार्यक्रम में भारत सरकार ने एक करोड़ 36 लाख रुपये से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी है जो इसने अपने छोटे विकास परियोजना कार्यक्रम के तहत दी है।

### स्वीडन दुनिया का सबसे अच्छा देश, भारत 70 वें नंबर पर

अपना वैश्विक स्तर और ऊपर उठाकर 'द गुड कंट्री इंडेक्स-2015' नामक सूची में स्वीडन सबसे ऊपर पहुंच गया है।

- 163 देशों की इस सूची में भारत 70वें नंबर पर है।
- 163 देशों की इस सूची में लीबिया सबसे आखिरी नंबर पर है।

### प्रधानमंत्री ने अफगान-भारत मित्रता बांध का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में आज चिश्त-ए-शरीफ में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉ. अशरफ गनी के साथ संयुक्त रूप से अफगान-भारत मित्रता बांध (सलमा बांध) का शुभारंभ किया।

- अफगान-भारत मैत्री बांध 42 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता, 75 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, जलापूर्ति और अफगानिस्तान के लोगों के लिए अन्य लाभों हेतु बनाई गई एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है।
- सलमा बांध अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में हरीरुद नदी पर भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक ऐतिहासिक बुनियादी ढांचे की परियोजना है। इस परियोजना का निष्पादन और कार्यान्वयन जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के एक उपक्रम वेपकांस लिमिटेड के द्वारा किया गया है।

### प्रधानमंत्री ने दोहा में कामगारों के शिविर का दौरा किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज डाऊन टाउन दोहा में मशरब के एक परियोजना स्थल पर भारतीय कामगारों के साथ बातचीत की।

- वहां एकत्र कामगारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोहा में पहुंचने के बाद उनका पहला कार्यक्रम आप लोगों से मिलना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उन मुद्दों से पूरी तरह वाकिफ हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं। जब वे कतर के नेतृत्व से मिलेंगे तो उनके सामने इन मुद्दों को उठाएंगे।
- प्रधानमंत्री ने कामगारों के साथ बातचीत के लिए आने से पूर्व इस स्थल पर बने चिकित्सा शिविर का संक्षिप्त दौरा किया, उन्होंने डाक्टरों द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों के लिए उन्हें बधाई दी।

### पर्यावरण दिवस 2016: 5 जून

पर्यावरण दिवस 2016, 5 जून को वन्यजीवों के अवैध व्यापार के लिए शून्य सहिष्णुता: थीम के साथ मनाया गया।

- इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक सिस्टम पर बढ़ रहे तनाव को रोकने के लिये लोगों को एक्शन लेने के लिये प्रेरित करना है।

### भारत और ट्यूनिशिया ने सूचना प्रौद्योगिकी व परम्परागत हस्तशिल्प के विकास हेतु सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये

भारत और ट्यूनिशिया ने सूचना प्रौद्योगिकी और परम्परागत हस्तशिल्प के विकास में आपसी सहयोग बढ़ने हेतु सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये। ट्यूनिश में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये।

- भारत और ट्यूनीशिया के बीच संबंधों को मजबूत करना और नये क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का श्री इसिद के साथ मिलने का प्रमुख मुद्दा है।

### भारत और कतर के बीच 7 अहम समझौते पर हस्ताक्षर

विश्व के प्रमुख तेल एवं गैस उत्पादक देश कतर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने दोनों देशों के बीच 7 अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।

**हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन:-**

- राष्ट्रीय निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड में निवेश के लिए समझौता ज्ञापन (NIIF)
- पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- कस्टम मामलों में सहयोग और आपसी सहायता पर करार
- वित्त खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) और कतर वित्तीय सूचना इकाई पर समझौता ज्ञापन (QFIU)
- युवा और खेल के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन
- कौशल विकास और योग्यता को मान्यता देने में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन

**15वीं शांगरी-ला वार्ता संपन्न**

पंद्रहवीं शांगरी-ला वार्ता सिंगापुर में संपन्न हुई। प्रतिनिधियों ने एशिया पैसिफिक में आतंकवाद, इंटरनेट सुरक्षा आदि क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित सवालों पर विचार विमर्श किया।

- वार्ता लंदन स्थित सामरिक अध्ययन के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट (आईआईएसएस) द्वारा आयोजित की गई है।
- तीन दिन के कार्यक्रम में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों से कम से कम 20 रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया वहीं भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया।

**14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया**

पूरी दुनिया में 14 जून 2016 को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया।

- 2016 विश्व रक्त दाता दिवस अभियान का विषय है-‘रक्त हम सभी को आपस में जोड़ता है’। विषय आम बंधन पर प्रकाश डालता है जो सभी के रक्त में है।
- 2016 विश्व रक्त दाता दिवस के लिए नारा है-‘शेयर लाईफ, गिव ब्लड’। नारा स्वैच्छिक दान प्रणालियों पर केंद्रित है।

**बृहस्पति की तरह दिखने वाले ग्रह केपलर-1647बी की खोज की गयी**

वैज्ञानिकों ने बृहस्पति की तरह दिखने वाले ग्रह केपलर-1647बी की खोज की है। दो सितारों की एक प्रणाली की परिक्रमा करता हुआ पाया गया जिसके कारण इसका अस्तित्व ब्रह्मांड में सबसे बड़ा हो सकता है।

- ग्रह केपलर-1647बी, नक्षत्र सिग्नस में स्थित है जिसे नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर और सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी के खगोलविदों द्वारा खोजा गया।
- खोजकर्ताओं के अनुसार केपलर-1647 लगभग 3700 प्रकाश वर्ष दूर है एवं यह 4.4 बिलियन वर्ष पुराना हो सकता है जो लगभग पृथ्वी के समान है।

### इजराइल पहली बार संयुक्त राष्ट्र की स्थायी समिति का अध्यक्ष निर्वाचित

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल को अपनी कानूनी समिति का अध्यक्ष चुना है। इजराइल को पहली बार छह में से किसी एक समिति के स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है।

- गुप्त मतदान में इजराइल को 109 मत उसके हित में मिले। किसी भी सदस्य ने इजराइल के खिलाफ वोट नहीं किया।

### मोदी, सिरिसेना ने जाफना में स्टेडियम का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने जाफना में दुरईअप्पा स्टेडियम का उद्घाटन किया, जिसका हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया है। इस उद्घाटन समारोह के दौरान मोदी वीडियो-कांफ्रेंस के जरिये नई दिल्ली से इस समारोह से जुड़े।

- यह स्टेडियम 1997 में अनुपयोगी हो गया था, जिसका भारत सरकार ने सात करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकरण कराया है।
- जाफना के पूर्व मेयर दिवंगत अलफ्रेड थम्बीराजा दुरईअप्पा के नाम इस स्टेडियम का नाम रखा गया है।

### भारत-दक्षिण कोरिया संबंधों में मजबूती हेतु कोरिया प्लस पहल आरंभ

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण और दक्षिण कोरिया के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्री जू ह्युंगवान ने भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोरिया प्लस नामक विशेष पहल की शुरुआत की।

- यह समझौता ज्ञापन मई 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री की दक्षिण कोरिया दौरे का परिणाम है।
- इसमें कोरियाई सरकार के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधि, कोरिया व्यापार निवेश संवर्धन संस्था (केओटीआरए) के प्रतिनिधि और साथ ही इनवेस्ट इंडिया के भी तीन प्रतिनिधियों को रखा गया है।

### 21 जून: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

विश्व भर में 21 जून 2016 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है- 'युवाओं को जोड़ें'।

- इस दिवस पर वर्ष 2015 में 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा अपनाये गये सतत विकास लक्ष्यों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पर प्रकाश डाला गया।



- भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हज़ारों लोगों के साथ योग करके यह दिवस मनाया गया।

### तीन दिवसीय 'भारतीय गंगा-डेन्यूब सांस्कृतिक महोत्सव' का हंगरी में समापन

हंगरी में 'भारतीय गंगा-डेन्यूब सांस्कृतिक महोत्सव' का उद्घाटन संस्कृति एवं पर्यटन (स्वतंत्र प्रभार) और नागरिक विमानन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने बुडापेस्ट स्थित विगाडो थियेटर में किया।

- डॉ. शर्मा योग पर कार्यशाला भी आयोजित की। भारतीय कला के स्वरूपों में कुशल माने जाने वाले हंगरी के कलाकार इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
- महोत्सव में भारतीय संस्कृतियों का प्रदर्शन किया गया, जिनमें नृत्य, संगीत, योग, फिल्म और कई प्रदर्शनियां शामिल हैं। भारतीय मार्शल आर्ट विशेषज्ञ और कठपुतली कलाकारों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया।

### मलेशिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा

आजाद हिंद फौज का हिस्सा रहे 9 सदस्यों की उपस्थिति में यहां भारतीय सांस्कृतिक केंद्र परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया।

- पिछले वर्ष मलेशिया के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय सांस्कृतिक केंद्र रखने की घोषणा की थी।

### मंगल ग्रह के गड्डे का नाम नेपाल के भूकंप प्रभावित गांव लांगटांग के नाम पर रखा गया

अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर मौजूद 9.8 किलोमीटर चौड़े एक गड्डे का नाम नेपाल के भूकंप प्रभावित स्थान लांगटांग के नाम पर रखा है।

- लांगटांग नेपाल का एक गांव है जो 25 अप्रैल 2015 को आये भीषण भूकंप के कारण तबाह हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार, इस गांव में भूकंप एवं उसके बाद आये भूस्खलन से 215 लोग मारे गये।
- शोधकर्ता डॉ जालिंग डी हास के अनुसार उन्होंने यह नाम इसलिए चुना क्योंकि उनके साथी ने वहां रहकर हिमालय के ग्लेशियरों का अध्ययन किया था। वहां उनका बेस कैंप था और हमें लगता है कि यह हमारी ओर से इस स्थान के लिए यह गहरी श्रद्धाजलि है।

### भारत और थाईलैण्ड ने संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए

भारत और थाईलैंड ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में दो समझौते किए हैं।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत की यात्रा पर आए थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रायुत चान ओ चा और दोनों देशों के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद ये समझौते किए गए।

### संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया गया

संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून 2016 को मनाया गया।

- यह दिवस सभी सरकारी कर्मचारियों के अमूल्य योगदान को चिह्नित करने और एक बेहतर दुनिया बनाने के प्रशासकीय प्रयास के लिए हर वर्ष मनाया जाता है।
- वर्ष 2016 का विषय 'लीविंग नो वन बिहाइंड: इनोवेटिव इंस्टिट्यूटनल अप्रोचेस एंड पब्लिक सर्विस डिलिवरी' है।

### मर्सर ने महंगे शहरों के सर्वेक्षण की सूची जारी की, भारत में मुंबई सबसे महंगा शहर

मर्सर द्वारा 22 जून 2016 को वर्ष 2016 के लिए कराये गये महंगे शहरों की सूची जारी की गयी। इस सूची में हॉंगकॉंग पहले स्थान पर रहा जबकि लुआंडा दूसरे स्थान पर रहा।

- इस सर्वेक्षण में पांच महाद्वीपों के 209 शहरों को रैंकिंग प्रदान की गयी।
- न्यूयॉर्क को सभी शहरों के लिए आधार माना गया तथा मुद्रा कीमत अमेरिकी डॉलर में आंकी गयी।

### महास्थानगढ 2016-17 के लिए दक्षेस सांस्कृतिक राजधानी घोषित

महास्थानगढ, बोगरा, बांग्लादेश में 3वीं शताब्दी ई.पू. का पुरातात्विक स्थल, को क्षेत्रीय सहयोग के दक्षिण एशियाई संगठन (दक्षेस) की वर्ष 2016-17 के लिए सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है।

- एक दक्षेस सांस्कृतिक राजधानी के रूप में, यह ऐतिहासिक जगह अक्टूबर 2016 से सितंबर 2017 तक साहित्य, फिल्म, खाद्य पदार्थ और नृत्य आधारित त्योहारों की मेजबानी करेगा।

### अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को विश्व भर में मनाया गया

विश्व भर में 25 जून 2016 को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 2016 का विषय: एट सी फॉर ऑल (At Sea For All)।

- इस फैसले के मोटो से यह पता चलता है कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले लगभग सभी चीजें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समुद्री परिवहन द्वारा प्रभावित हैं।

### जनता का ऐतिहासिक फैसला, ब्रिटेन होगा यूरोपियन यूनियन से बाहर

ब्रिटेन की जनता ने अपना ऐतिहासिक फरमान दे दिया है। जनता ने 28 देशों वाले यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के बाहर होने के पक्ष में वोट डाला है।

- 43 साल बाद हुए इस ऐतिहासिक जनमत संग्रह में ब्रिटेन की जनता ने 52%-48% के अंतर से ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग करने के पक्ष में वोट किया।
- ब्रेक्जिट की वजह से ब्रिटेन की करेंसी पाउंड करीब 31 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है।

**ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने ब्रेक्सिट मतदान के बाद इस्तीफे की घोषणा की**

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने ब्रेक्सिट मतदान के बाद इस्तीफे की घोषणा की है।

- ब्रिटेन के यूरोपीय संघ (ईयू) में बने रहने या इसकी सदस्यता से बाहर निकलने को लेकर 23 जून 2016 को कराए गए जनमत संग्रह में करीब 51.89 फीसदी मतदान यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए पसंद किया जबकि 48.11 प्रतिशत वोट साथ रहने के पक्ष में दिये।
- वे अक्टूबर से पहले अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।

**कोलंबिया की सरकार और फार्क विद्रोहियों ने ऐतिहासिक दोतरफा युद्धविराम पर हस्ताक्षर किये**

कोलंबिया की सरकार और फार्क विद्रोहियों ने ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस सहमति ने 1960 के दशक में शुरू हुए गुरिल्ला युद्ध को पूरी तरह खत्म करने का मंच भी प्रदान किया है।

- क्यूबा में लगभग तीन वर्षों तक चली शांति वार्ता के बाद हुए इस संघर्ष विराम पर सहमति बनी।

**श्रीलंका में सूचना का अधिकार विधेयक पारित**

श्रीलंका की संसद ने सूचना के अधिकार विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार एवं कुशासन से ग्रस्त इस देश में पारदर्शिता एवं सुशासन बहाल करना है। सूचना का अधिकार विधेयक संसद में दो दिन की चर्चा के बाद बिना मतविभाजन के पारित कर दिया गया।

- सही निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक पांच सदस्यीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा।
- सदस्यों जिनको पृष्ठताछ करने और अपील पर सुनवाई करने का अधिकार होगा, को संवैधानिक परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

**भारत बना MTCR का पूर्ण सदस्य**

भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) का पूर्ण सदस्य बन गया। इस समूह के 35वें सदस्य के रूप में भारत का प्रवेश अंतरराष्ट्रीय अप्रसार के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में परस्पर लाभकारी होगा।

- विदेश सचिव एस जयशंकर फ्रांस, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग के राजदूतों की मौजूदगी में एमटीसीआर में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।
- एमटीसीआर की सदस्यता से भारत उच्चस्तरीय मिसाइल प्रौद्योगिकी की खरीद करने में सक्षम होगा और रूस के साथ इसके संयुक्त उपक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा।

### नेपाल ने नागरिकों पर अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और लीबिया में काम करने से रोक लगाई

नेपाल ने कलह-ग्रस्त अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और लीबिया में काम करने से अपने नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया।

- निर्णय, काबुल में तालिबानी आत्मघाती बम विस्फोट में 13 नेपाली सुरक्षा गार्डों के मारे जाने के बाद एक कैबिनेट बैठक में लिया गया।
- अफगानिस्तान में मारे गए नेपाली नागरिक काबुल में कनाडा के दूतावास में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थे।

### चीन ने प्रकाश प्रदूषण से निपटने हेतु पहला डार्क स्काई रिज़र्व आरंभ किया

चीन ने जून 2016 के चौथे सप्ताह में तिब्बत स्थित गारी प्रांत में डार्क स्काई रिज़र्व आरंभ किया है।

- इसका उद्देश्य खगोलीय गणनाओं के लिए उपयुक्त स्थानों को प्रकाश प्रदूषण से बचाना है।
- डार्क स्काई रिज़र्व 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है। इसे 'चाइना बायोडाइवर्सिटी कंजरवेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट फाउंडेशन' तथा तिब्बत की क्षेत्रीय सरकार की ओर से संयुक्त रूप से आरंभ किया गया।

### 39 प्रतिशत वोटों के साथ विजयी हुए जोहानसन

आइसलैंड में राजनीति के नए चेहरे एवं इतिहास के प्रोफेसर गुडनी जोहानसन ने 39.1 प्रतिशत वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है।

- वे ओलाफुर रेग्रर ग्रिमसन का स्थान लेंगे, जो 20 साल तक देश के प्रमुख रहे।
- अप्रैल में हुए तथा-कथित पनामा पेपर्स लीक के बाद जोहानसन ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इस पेपर्स लीक में विदेशों में मौजूद बैंक खातों का ब्योरा था, जिसमें आइसलैंड के कई नेताओं का भी नाम था।

### मानव पूंजी सूचकांक में भारत 105वें स्थान पर, फिनलैंड अब्वल

भारत विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की ताजा मानव पूंजी सूचकांक में 130 देशों की सूची में नीचे 105वें स्थान पर है। यह सूचकांक इस बात का संकेत है कि कौन सा देश अपने लोगों के पालन पोषण, शिक्षण-प्रशिक्षण और विकास तथा प्रतिभाओं के उपयोग में कितना आगे है।

- इस सूची में फिनलैंड शीर्ष पर है जबकि भारत चीन (71) व बांग्लादेश (104) से भी पीछे है।
- जिनेवा के गैर सरकारी संगठन, वैश्विक आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने यहां 'नये चैम्पियन' नाम से कराए जाने वाले वार्षिक सम्मेलन में यह रिपोर्ट जारी की।

**भारत ने शंघाई सहयोग संगठन की पूर्ण सदस्यता के लिए मेमोरेण्डम ऑफ़ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर किए**

भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की पूर्ण सदस्यता के लिए मेमोरेण्डम ऑफ़ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर किए हैं।

- विदेश मंत्रालय में सचिव (पूरब) सुजाता मेहता ने एससीओ सम्मेलन में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए।
- पाकिस्तान को भी एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जा रहा है।
- भारत को समूह का सदस्य बनाने के लिए प्रक्रिया की शुरुआत जुलाई 2015 में उफा में हुए एससीओ सम्मेलन में हुई थी जब भारत, पाकिस्तान और ईरान को सदस्यता प्रदान करने के लिए प्रशासनिक बाधाओं को दूर कर दिया गया था।

**पनामा नहर को विस्तार कार्य के बाद पुनः व्यापारिक यातायात हेतु खोला गया**

77 किलोमीटर लंबी पनामा नहर को विस्तार के बाद विशाल जहाजों के लिए खोल दिया गया है।

- इसके विस्तार पर करीब 5.25 अरब डॉलर (करीब 36 हजार करोड़ रुपये) की लागत आई है। चीन के एक विशाल जहाज कास्को शिपिंग पनामा ने इस विस्तारित नहर का उद्घाटन किया।

**स्वीडन ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक रोड का उद्घाटन किया**

स्वीडन ने इलेक्ट्रिक रोड के एक खंड का उद्घाटन किया जिस पर अभी शोध किया जा रहा है। इसके साथ ही भारी वाहनों की आवाजाही के लिए इलेक्ट्रिक रोड बनाने वाला स्वीडन विश्व का पहला देश बना।

- रोड ई-16 पर यह टेस्ट किया गया। इसमें एक ट्रक के ऊपर केबल लगाकर उसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया जिससे विद्युत् प्रवाह के साथ ट्रक को खींचा गया।
- यह प्रयोग सरकार द्वारा उर्जा संरक्षण एवं 2030 तक ईंधन मुक्त वाहन प्रणाली बनाने के लक्ष्य की ओर एक कदम है।

## राष्ट्रीय

**शिमला में बना देश का पहला हरित डाटा केंद्र**

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला के मैहली में राज्य डाटा केंद्र और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नए भवन का लोकार्पण किया है।

- उन्होंने माना कि यह देश का पहला हरित डाटा केंद्र बन गया है। इससे कागजों का इस्तेमाल नाममात्र का होगा। ऊर्जा की खपत भी कम होगी। उन्होंने लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से 101 ई-गवर्नेंस सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

### गुवाहाटी बना देश का पहला "सिटी एनिमल" वाला शहर

पूर्वोत्तर के सब से बड़े राज्य असम का गुवाहाटी 'शहर जीव' यानी " सिटी एनिमल " वाला देश का पहला शहर बन गया है। कामरूप मेट्रोपोलिटन जिला प्रशासन ने " गंगीय रिवर डॉल्फिन " को गुवाहाटी शहर का प्रतीक घोषित किया है।

- जिला प्रशासन ने शहर का प्रतीक जीव तय करने के लिए तीन संरक्षित जीवों के वास्ते ऑनलाइन और ऑफलाइन वोटिंग करवाई थी। यह घोषणा उस वोटिंग के नतीजे के आधार पर की गयी है।
- ये तीनों ही जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं। इस प्रतिस्पर्धा में " गंगीय रिवर डॉल्फिन " के अलावा काला सॉफ्टशेल टर्टल (बोर कासो) कछुआ और ग्रेटर एडजुटेंड स्टोर्क (हरगिला) थे।

### स्वच्छ गंगा के लिए 5 राज्यों में 'स्वच्छ युग' अभियान

पवित्र गंगा नदी के किनारे बसे गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाने के लिए सरकार ने तीन केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से 'स्वच्छ युग' अभियान शुरू किया है।

- गंगा नदी के किनारे पांच राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 52 जिलों की 1,651 पंचायतों में कुल 5,169 गांव हैं।
- इस अभियान के तहत नेहरू युवा केन्द्र संगठन के समन्वय के तहत युवा मामलों का मंत्रालय, भारत स्काउट और गाइड, नेहरू युवा केन्द्र और राष्ट्रीय सेवा योजना जैसी युवा एजेंसियों की सहायता को सूचीबद्ध कर रहा है।

### राजस्थान ने हवा में प्रदूषण की चेतावनी के लिए, मोबाइल एप लॉन्च किया

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश के तीन शहरों, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर की हवा में प्रदूषण के स्तर की जानकारी एवं चेतावनी देने के लिए मोबाइल एप "राजवायु" को लॉन्च किया है।

- यह एप राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यूनिसेफ राजस्थान तथा केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया गया है।
- राजवायु एप प्रदूषण मापक यंत्रों और मौसम संवेदी उपकरणों पर आधारित है।

### केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा "सूर्यमित्र" मोबाइल एप का लोकार्पण

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने छत्र पर सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए आयोजित कार्यशाला के दौरान "सूर्यमित्र" मोबाइल एप का लोकार्पण किया है।

- इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) ने विकसित किया है।
- यह एप एक उच्च प्रौद्योगिकी मंच पर है जिसमें कई हजार कॉल को एक साथ संभालने की क्षमता है।

### फोर्ब्स लिस्ट: दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में 4 भारत की

हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई की दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में भारतीय स्टेट बैंक की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य व आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक चंदा कोचर समेत चार भारतीय महिलायें शामिल हैं।

- सूची में शीर्ष पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल हैं।
- भारत से एसबीआई प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य को 25वीं, आईसीआईसीआई बैंक की चंदा कोचर को 40वीं, बायोकाॅन लिमिटेड की प्रमुख किरण मजूमदार शाॅ को 77वीं और शोभना भरतिया को 93वीं रैंकिंग मिली है। भारतीय मूल की इंदिरा न्यूी इस लिस्ट में 14वीं पोजिशन पर हैं।

### महाराष्ट्र में प्रत्येक महीने की 21 तारीख को मनाया जाएगा योग दिवस

महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि राज्य के सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रत्येक महीने की 21 तारीख को योग दिवस मनाया जाएगा।

- यह भी तय किया गया कि प्रत्येक वर्ष 12-21 जनवरी के बीच योग महोत्सव के आयोजन हेतु हर जिले में एक योग समिति का गठन किया जाएगा और राज्य स्तर पर गठित अन्य समितियां इनकी निगरानी और समन्वयन करेंगी।

### गूगल और टाटा की संयुक्त पहल "इंटरनेट साथी" का पश्चिम बंगाल में शुभारम्भ

इंटरनेट सर्च इंजन गूगल और टाटा ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से पहल करके "इंटरनेट साथी" का कोलकाता, पश्चिम बंगाल में शुभारम्भ किया है।

- इस पहल का उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों जैसे पुरुलिया आदि में डिजिटल लैंगिक अंतर को कम करना है, जहां लड़कियों को इंटरनेट का उपयोग करने और दूसरों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- इंटरनेट साथी पांच राज्यों में सफलतापूर्वक शुरू किया गया। जुलाई 2015 में, यह पश्चिम बंगाल सहित चार राज्यों में शुरू हुआ।

### बिहार में शुरू हुई सत्याग्रह एक्सप्रेस

रेल मंत्री ने बिहार में बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली के लिए चम्पारण सत्याग्रह एक्सप्रेस के नाम से नई ट्रेन सेवा शुरू की।

- इसके अलावा रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बानमनखी –पूर्णिमा रेलवे स्टेशन तथा मोतिहर, बेगूसराय व दानापुर रेलवे ओवरब्रिज का भी मोतिहारी से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया।

### सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बनाई नई प्रकाशन मीडिया विज्ञापन नीति

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रकाशन मीडिया में विज्ञापन जारी करने में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के लिए एक नई प्रकाशन मीडिया विज्ञापन नीति बनाई है।

- नीति में सरकारी विज्ञापन जारी करने को आसान बनाने और समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की विभिन्न श्रेणियों के बीच समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

### सिक्किम सार्वजनिक सरकारी डाटा पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य

सिक्किम खुला सार्वजनिक सरकारी डाटा पोर्टल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पोर्टल है:

'sikkim.data.gov.in'

- पोर्टल को लोकसभा सांसद पी डी राय द्वारा शुरू किया गया और उन्होंने सार्वजनिक सरकारी डाटा प्लेटफॉर्म (सिक्किम) का भी शुभारंभ किया।
- पोर्टल सरकार या सरकार नियंत्रित संस्थाओं द्वारा उत्पादित या कमीशन डेटा के नि: शुल्क उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्वितरण की सुविधा प्रदान करता है।

### पीईसी विवि में कल्पना चावला चेयर की स्थापना

रेल परियोजनाओं में तकनीकी समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से रेलवे ने चंडीगढ़ के पीईसी विश्वविद्यालय में भू-आकाशीय प्रौद्योगिकी पर कल्पना चावला चेयर की स्थापना की है।

- चेयर का उद्देश्य भू-आकाशीय प्रौद्योगिकी में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देना और भारतीय रेलवे को, खासकर रेलवे परियोजनाओं को मजबूत करना है।
- इसके अध्यक्ष वीके गुप्ता तथा उपाध्यक्ष मनोज अरोडा होंगे।

### प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) जारी की। देश में तैयार की गई इस तरह की यह पहली योजना है।



- इसका उद्देश्य भारत को आपदा प्रतिरोधक बनाना और जन-जीवन तथा संपत्ति के नुकसान को कम करना है। यह योजना 'सेनडाई फ्रेमवर्क' के चार बिन्दुओं पर आधारित है। इनमें आपदा जोखिम का अध्ययन, आपदा जोखिम प्रबंधन में सुधार करना, ढांचागत और गैर ढांचागत उपायों के जरिये आपदा जोखिम को कम करने के लिए निवेश करना तथा आपदा का सामना करने के लिए तैयारी, पूर्व सूचना एवं आपदा के बाद बेहतर पुनर्निर्माण करना शामिल हैं।
- योजना के दायरे में आपदा प्रबंधन के सभी चरण शामिल हैं- रोकथाम, जोखिम कमकरना, प्रत्युत्तर तथा बहाली। योजना के तहत सरकार के समस्त विभागों और एजेंसियों के बीच हर प्रकार के एकीकरण का प्रावधान किया गया है।
- योजना में पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों सहित प्रत्येक सरकारी स्तर पर भूमिका और दायित्व के विषय में उल्लेख किया गया है। यह योजना क्षेत्रीय आधार को ध्यान में रख कर बनाई गई है जो न सिर्फ आपदा प्रबंधन के लिए बल्कि विकास योजना के लिए भी लाभकारी है।

### घरेलू काला धन के लिये अनुपालन खिड़की सुविधा शुरू

देश में जमा कालेधन के खुलासे के उद्देश्य से चार महीने के लिए अनुपालन खिड़की खुलेगी। इसके तहत घोषित संपत्ति या कालेधन के वर्तमान बाजार मूल्य का 45 प्रतिशत कर, जुर्माना और अधिभार के रूप में 30 सितंबर तक चुकाना होगा।

- इस सुविधा में उस संपत्ति के वर्तमान बाजार मूल्य का 45 प्रतिशत कर, जुर्माना और अधिभार के रूप में देना होगा। प्रत्यक्ष कर विवाद एवं समाधान योजना को वित्त अधिनियम 2016 में शामिल कर लिया गया है।

### केरल में एंटी ड्रग्स कैंपेन का चेहरा होंगे सचिन तेंदुलकर

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने केरल की माकपा नीत एलडीएफ सरकार को राज्य में नशीली दवाओं और शराब के खिलाफ अभियान के लिए अपना नाम देने के आग्रह पर सहमति जता दी है।

- मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यह बात बतायी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, "तेंदुलकर ने शराब और नशीली दवाओं के खिलाफ राज्य के अभियान को मजबूती देने के लिए अपना नाम देने पर सहमति दे दी है।
- उन्होंने यह भी कहा कि केबीएफसी ने राज्य की युवा प्रतिभाओं को ट्रेनिंग देने के लिए फुटबाल अकदमी बनाने पर सहमति जतायी है।

### भारत बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ हेग आचार संहिता में शामिल हुआ

भारत राजनयिक माध्यमों से वियना में एचसीओसी सेंट्रल कांटेक्ट की अधिसूचना जारी होने के साथ बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के लिए हेग आचार संहिता (एचसीओसी) में शामिल हो गया।

- दिल्ली वांछित मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) के प्रति भारत की सदस्यता का आवेदन मजबूत करने के लिए HCOC साथ जुड़ गया है।
- एनएसजी की पूर्ण बैठक जून 2016 में सियोल में आयोजित की जाएगी।

### महाराष्ट्र : जमीन घोटाले में घिरे मंत्री एकनाथ खडसे ने दिया इस्तीफा

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे ने इस्तीफा दे दिया है। खडसे जमीन घोटाले के आरोपों से घिरे हैं। इसके साथ ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के कनेक्शन को लेकर भी उन पर विवाद चल रहा है।

- राज्यपाल सी विद्यासागर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। जलगांव जिले के मुक्ताई नगर विधानसभा क्षेत्र से छह बार चुनकर आने वाले खडसे सीएम पद के बड़े दावेदार रह चुके हैं।

### भारतीय नौसेना ने अपने बजट के 1.5 प्रतिशत हिस्से का इस्तेमाल नवीकरणीय ऊर्जा उत्सर्जन के लिए करने का संकल्प लिया

भारतीय नौसेना के हरित पहल कार्यक्रम ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दो वर्ष पूरे करे लिये हैं। इस अवसर पर भारतीय नौसेना ने अपने बजट के 1.5 प्रतिशत हिस्से का इस्तेमाल नवीकरणीय ऊर्जा उत्सर्जन के लिए करने का संकल्प लिया।

- एक उत्तरदायी और बहुआयामी सेना होने के नाते भारतीय नौसेना सभी प्रकार के समेकित और स्थायी विकास में विश्वास रखती है। तदनुसार भारतीय नौसेना ने न केवल ऊर्जा और पर्यावरण पर पड़ने वाले अपने दुष्प्रभाव में सुधार किया है, बल्कि समस्या की जड़ को हल करने का भी प्रयास किया है।

### सुरेश प्रभु ने विश्व पर्यावरण दिवस पर टाइगर एक्सप्रेस गाड़ी का शुभारंभ किया

केंद्रीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने आम बजट 2016-17 में की गई घोषणा के अनुरूप दिल्ली सफदरजंग स्टेशन से बाघ खोज परिपथ रेल गाड़ी (टाइगर ट्रेल सर्किट ट्रेन) के उद्घाटन को हरी झंडी दिखाई।

- श्री सुरेश प्रभु, जो मुंबई की यात्रा पर थे, ने मुंबई एवं दिल्ली के बीच वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इस रेल गाड़ी को हरी झंडी दिखाई।
- विश्व पर्यावरण दिवस पर टाइगर एक्सप्रेस की शुरुआत हमारे जीवन में पर्यावरण के महत्व को रेखांकित करती है। रेल मंत्री ने इस रेल गाड़ी की संकल्पना में व्यक्तिगत दिलचस्पी ली। इस पर्यटक रेल गाड़ी का संचालन भारतीय रेल की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय रेल कैंटरिंग एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा किया जाएगा।

### खट्टर ने किया 'जय जवान आवास योजना' का शुभारंभ

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने झज्जर जिले के मातनहेल गांव में राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल खोलने तथा 'जय जवान आवास योजना' के तहत बहादुरगढ़ के बाद करनाल में दूसरी आवासीय कॉलोनी बनाने की घोषणा की है।

- पूर्व सैनिकों को तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस में तीन हजार पद पूर्व सैनिकों से भरे जाएंगे।

### एशिया के पहले 'जिप्स गिद्ध पुनरोद्भव कार्यक्रम' का शुभारंभ

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के पंचकुला जिले के पिनजोर में जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र से एशिया के पहले 'जिप्स गिद्ध पुनरोद्भव कार्यक्रम' की शुरुआत की।

- श्री मनोहर लाल ने पौधारोपण भी किया और गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र से दो गिद्धों (हिमालयन ग्रीफोनस प्रजाति) को स्वच्छंद किया।
- अब ये गिद्ध जंगली गिद्धों के साथ रहेंगे और उनसे ही उड़ने, खानपान सहित सभी गतिविधियों की ट्रेनिंग लेंगे। एक वर्ष की ट्रेनिंग के बाद इन गिद्धों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की शुरुआत की

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का शुभारम्भ किया है।

- कानून आवेदनों की गैर-अनुपालन में सख्त प्रावधान है। कानून के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जायेगा या 500 रुपए से 5000 रुपए तक दंड लगाया जा सकता है।
- राज्य सरकार के सभी 42 विभागों को नए अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा।

आईआईएससी बेंगलुरु भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय

क्यूएस संस्था की वार्षिक एशियाई हायर एजुकेशन रैंकिंग के अनुसार आईआईएससी बेंगलुरु भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय बना हुआ है। आईआईएससी को इस वर्ष सूची में 33वां स्थान मिला है।

- आईआईटी मुंबई को 35वां स्थान प्राप्त हुआ जबकि आईआईटी दिल्ली को 36वां, आईआईटी मद्रास को 43वां और आईआईटी कानपुर को 48वां स्थान हासिल हुआ। क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में आईआईटी खडगपुर को 51वां स्थान मिला जबकि दो अन्य आईआईटी। रूड़की और गुवाहाटी को क्रमशः 78वां और 94वां स्थान मिला।

रेलवे में महिला यात्रियों के लिए स्पेशल जननी योजना शुरू

रेलवे ने महिला यात्रियों के लिए स्पेशल जननी योजना शुरू की है जिसके तहत अब ट्रेनों में छोटे बच्चों के लिए दूध, गर्म पानी और बेबी फूड की व्यवस्था होगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिलहाल ये सुविधा अगस्त क्रांति राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में मिलेगी।

- इन सेवाओं की शुरुआत रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में की।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाल श्रम ट्रेकिंग सिस्टम का उद्घाटन किया

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाल श्रम ट्रेकिंग सिस्टम (सीएलटीएस) का उद्घाटन किया है। इस सिस्टम द्वारा बाल श्रम पर निगरानी रखने एवं छुड़ाये गये बच्चों को उचित पुनर्वास दिलाया जायेगा।

- इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी घोषणा की कि छुड़ाए गये बाल श्रमिकों के मांग पत्र को भी स्वीकार किया है।
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इन बच्चों की मांगों के क्रियान्वयन के लिए एक समिति भी स्थापित की जाएगी।
- बाल श्रम से छुड़ाये गये बच्चों को लेकर यह गारंटी नहीं दी जा सकती कि वह भविष्य में फिर से जबरन श्रम में नहीं धकेला जायेगा। छुड़ाये गये बच्चों के लिए भी ट्रेकिंग सिस्टम लगाये जाने की आवश्यकता है जिससे उनके भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके।

### भारत की टाइमटेबल से चलने वाली पहली मालगाड़ी का शुभारम्भ

केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भारत की टाइमटेबल से चलने वाली पहली मालगाड़ी 'कार्गो एक्सप्रेस' को हरी झंडी दिखाई।

- इस नई पहल से अब समय पर माल पहुंच पाएगा और इससे सबसे ज्यादा फायदा व्यापारियों को होगा।
- अब तक माल के परिवहन के लिये सवारी गाड़ी को मालगाड़ी पर प्राथमिकता दी जाती थी।

### मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में विद्यांजली की शुरुआत की

मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में विद्यांजली, एक स्कूल स्वयंसेवक कार्यक्रम शुरू किया है।

- विद्यांजली, पठे भारत बड़े भारत के तहत एक पहल है, जो समाज और निजी क्षेत्र का देश भर में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में भागिदारी बढ़ायेगी। विद्यांजली के माध्यम से, सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में परिवर्तन लाने की कोशिश की जायेगी।

### किरण बेदी ने संकट में वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए मोबाइल एप्लिकेशन की शुरुआत की

उपराज्यपाल किरण बेदी द्वारा राज निवास में "हेल्पेज एसओएस ऐप" शुरू किया गया।

- अनुप्रयोग में एक एसओएस-सेव ओअर सीनियर्स बटन है जो आपात मदद काउंसलर डेस्क तक पहुँचने में सहायता प्रदान करता है।
- यह 24x7 सेवा है और किसी भी समय में संकट में वृद्धजनों की मदद करने के लिए तैयार है।

### कम्बाइंड ग्रेजुएशन परेड में भारत में पहली बार महिला फाइटर पायलट शामिल

वायुसेना अकादमी के कम्बाइंड ग्रेजुएशन परेड में उस वक्त इतिहास रचा गया जब भारतीय वायुसेना की पहली तीन महिला फाइटर पायलटों ने गर्वपूर्वक अपने फीतों और बिल्लों को हवा में लहराया।

ये ऑफिसर हैं:

- अवनी चतुर्वेदी,
- भावना कंठ
- मोहना सिंह
- तीनों को 2017 में बीदर में स्टेज III प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद सुखोई और तेजस जैसे लड़ाकू जेट विमानों के लिए उड़ान भरने के लिए शामिल किया जाएगा।

### केंद्र सरकार ने ओडिशा में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक पार्क के प्रस्ताव को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने एक ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो भुवनेश्वर के निकट एक समर्पित आईटी हब है, की स्थापना के लिए अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है।

- पार्क, जिसे केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना के तहत स्थापित किया जाना है, 203 एकड़ जमीन पर 205 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा जिसमें से केंद्र 95 करोड़ रुपये देगा जबकि बाकि ओडिशा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- पार्क प्रशिक्षण, इच्छुक उद्यमियों को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां तथा 10,000 से 12,000 व्यक्तियों को रोजगार क्षमता प्रदान करने की क्षमता वाला होगा।

### असम ने कॉलेजों को प्राथमिक स्कूलों से जोड़ने के लिए 'मैत्री एक ज्ञान यात्रा पहल' की शुरुआत की

असम सरकार ने कॉलेजों को उच्च विद्यालयों व प्राथमिक स्कूलों से जोड़ने के लिए एक अनूठी पहल 'मैत्री एक ज्ञान यात्रा' शुरू की है। प्रारंभ में, इसे राज्य के शिवसागर जिले में शुरू किया जाएगा और बाद में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

- राज्य में कुछ स्थानों पर स्कूल के शिक्षकों द्वारा निचले स्तर के छात्रों को पढ़ाना अपनी गरिमा के नीचे माना जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में शिक्षकों की मानसिकता बदलना है।

### पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री हेपेटाइटिस-सी राहत कोष आरंभ किया

पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल द्वारा मुख्यमंत्री हेपेटाइटिस-सी राहत कोष आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य हेपेटाइटिस-सी से पीड़ित लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।

- इस पहल से पंजाब हेपेटाइटिस-सी के मरीजों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है।
- इस कोष की कुल राशि 20 करोड़ रुपये होगी। इसमें 22 जिला अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।

### खाद्य पदार्थों में पोटेशियम ब्रोमेट के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध

भारत सरकार ने ब्रेड में उपयोग किए जाने ब्रेड बनाने में प्रयोग किए जाने वाले पोटेशियम ब्रोमेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। खाने-पीने की वस्तुओं में खाद्य मिश्रण के रूप में पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल पर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पिछले महीने स्वास्थ्य मंत्रालय से पोटेशियम ब्रोमेट को खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले स्वीकृत पदार्थों की सूची से हटाने की सिफारिश की थी।

### इसरो ने श्रीहरिकोटा से 20 सेटेलाइट प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड बनाया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा 22 जून 2016 को 17 विदेशी सेटेलाइटों सहित कुल 20 सेटेलाइट सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से एक साथ प्रक्षेपित किये गये।

- इससे पहले इसरो ने वर्ष 2008 में एक साथ 10 सेटेलाइट प्रक्षेपित किये थे।
- इनमें भारत के कार्टोसैट—2 और भारतीय विश्वविद्यालयों के 2 सेटेलाइटों का प्रक्षेपण हुआ। साथ में 17 छोटे विदेशी सेटेलाइट भी भेजे गए। इन्हें पीएसएलवी सी-34 से छोड़ा गया। दूसरे देशों में अमेरिका, जर्मनी, कनाडा एवं इंडोनेशिया के सेटेलाइट शामिल हैं। जबकि दो सेटेलाइट सत्याबामा यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग, पुणे के लिए प्रक्षेपित किये गये।

### जाति और निवास प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड जुड़ेगा

केन्द्र सरकार ने जून 2016 में सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे विद्यार्थियों को जारी होने वाले जाति और मूल निवास प्रमाण पत्रों को आधार से जोड़े। कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों को इस प्रकार के प्रमाण पत्र 60 दिन की मियाद के भीतर जारी कर दिए जायें।

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप में देरी की शिकायतों के मद्देनजर यह निर्देश जारी किये हैं।
- जाति और निवास प्रमाण पत्रों को आधार से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के योग्य उम्मीदवारों को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराना है।
- नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में होने वाले घालमेल को भी इससे रोका जा सकेगा।

### महाराष्ट्र में यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2004 के तहत यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है।

- अक्टूबर 2006 में राज्य सरकार ने मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैनों को धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया था।

### दानापुर-सहरसा जनहित एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बिहार के दानापुर और सहरसा के बीच एक नई रेलगाड़ी शुरू की और कहा कि उनके मंत्रालय का उद्देश्य देश के हर क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ना है।

- दानापुर-सहरसा जनहित एक्सप्रेस को रवाना करने के अलावा रेल मंत्री ने बिहार और झारखंड में तीन ट्रेन सेवाओं का विस्तार करने की भी घोषणा की।
- जहां जयनगर-सहरसा जानकी एक्सप्रेस की रोजाना सेवा का विस्तार कटिहार तक कर दिया गया, वहीं पटना-मुरलीगंज कोशी एक्सप्रेस की सेवा पूर्णिया कोर्ट स्टेशन तक बढ़ा दी गयी।

### देश का पहला दोपहिया सीएनजी वाहन: 1 किलोग्राम में 120 किलोमीटर

शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी तरह का पहला पायलट प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत दोपहिया वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) से चलाए जाएंगे।

- इस परियोजना की शुरुआत नई दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीएनजी स्टेशन पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान और केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रकाश जावड़ेकर ने की।

### आंध्र प्रदेश उदय योजना से जुड़ने वाला 13वां राज्य बना

आंध्र प्रदेश उदय योजना से जुड़ गया है और इसके साथ उदय योजना से जुड़ने वाला 13वां राज्य बन गया। इस योजना का मकसद कर्ज में डूबी बिजली वितरण कंपनियों को पटरी पर लाना है।

- इस योजना से जुड़ने से राज्य को करीब 4,400 करोड़ रुपए का शुद्ध रूप से फायदा होगा।

### नागालैंड के राज्यपाल ने महिला हैल्पलाइन नंबर 181 शुरू किया

नागालैंड व असम के राज्यपाल पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य ने नागालैंड के दिमापुर में महिला हेल्पलाइन नंबर 181 की शुरुआत की।

- इसके अलावा उन्होंने घरेलु व बाहरी हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिये 'सखी' नामक केन्द्र का भी उद्घाटन किया।

### जादवपुर विश्वविद्यालय में 100 करोड़ रुपये का रिसर्च सेंटर शुरू करेगा DRDO

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) जादवपुर विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये का अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा। सरकार संचालित विश्वविद्यालय के परिसर में आज 'जगदीश चंद्र बोस सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी' की आधारशिला रखी गई।

- 100 करोड़ रुपये के अनुसंधान केंद्र का उद्देश्य रक्षा बलों के लिए साइबर सुरक्षा और रोबोटिक से संबंधित प्रौद्योगिकियों का विकास है।

### स्मार्ट सिटी मिशन परियोजनाओं की पुणे में शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 20 अलग-अलग शहरों से 83 परियोजनाओं वाले 'स्मार्ट सिटी मिशन' को पुणे से शुरू किया है।

- 1770 करोड़ रुपये की लागत से लागू स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना में पुणे की 14 परियोजनाएं और अलग अलग शहरों में 69 अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।
- इन परियोजनाओं में जल आपूर्ति परियोजनाएं, जल उपचार संयंत्र, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस कचरा प्रबंधन और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (अमृत) के लिए अटल मिशन के तहत हरी और खुली जगह के विकास से संबंधित हैं।
- इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत शहरी गरीबों के लिए आवास परियोजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत क्षेत्र के विकास और प्रौद्योगिकी परियोजनाएं शामिल हैं।

### केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 22 वीं बैठक की अध्यक्षता

केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने झारखंड की राजधानी रांची में 22 वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की।

- इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास, बिहार के मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार, ओडिशा के वित्त मंत्री श्री प्रदीप कुमार अमत, पश्चिम बंगाल के योजना मंत्री डॉ आशीष बनर्जी, बिहार और झारखंड के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
- जोनल परिषद ने परिषद के पिछले साल पटना में आयोजित बैठक में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई।

### सोनीपत-जींद के बीच ट्रेन को रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाई

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सोनीपत-जींद के बीच 81 किलोमीटर लाइन पर पहली ट्रेन को झंडी दिखायी और विकास को बढ़ावा देने तथा भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने की जरूरत पर बल दिया।

- प्रभु ने कहा कि संयुक्त उपक्रम की तर्ज पर राज्य में संभावित रेल परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन के लिए रेलवे ने हरियाणा से हाथ मिलाया है।

### असम का माजुली द्वीप भारत का पहला द्वीप ज़िला बना



असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच 400 वर्ग किलोमीटर बड़ा 'माजुली द्वीप' भारत का पहला द्वीप ज़िला बन गया।

- यह फैसला राज्य की बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने माजुली विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ा था, जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है।

**राजनाथ सिंह ने किया झारखंड जगुआर के नए भवनों का उद्घाटन**

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड जगुआर के हेडक्वार्टर में नए भवनों का उद्घाटन किया है।

- राजनाथ सिंह ने रांची के टेंडरग्राम में नवनिर्मित झारखंड जगुआर के प्रशासनिक भवन, गेस्ट हाउस और 225 बेडेड बैरक का उद्घाटन किया।
- झारखंड जगुआर एक नक्सल विरोधी दस्ता है जिसका 2008 में आठ साल पहले गठन किया गया और अब तक माओवादियों के खिलाफ कई सफल संचालन ऑपरेशन का नेतृत्व किया है।

**ओडिशा सरकार 1 प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण देगी**

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक फीसदी ब्याज दर पर ऋण देने के लिए एक नई 'कलिंगा शिक्षा साथी योजना' शुरू की है।

- राज्य सरकार इस योजना के लिए आवश्यक धन, करीब 500 करोड़ रुपये अपने स्रोतों से जुटाएगी।
- इस योजना के तहत व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक गरीब छात्रों को 1% ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का अध्ययन ऋण दिया जायेगा।

**नौसेना में शामिल हुआ स्वदेशी ऐंटी सबमरीन टॉरपीडो 'वरुणास्त्र'**

रक्षा मंत्री मनोहर परिकर ने देश में बने और हेवीवेट ऐंटी सबमरीन टॉरपीडो (पनडुब्बी रोधी टॉरपीडो) वरुणास्त्र को नौसेना को सौंप दिया।

- इसी के साथ भारत आठ देशों की उस जमात में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह का सिस्टम डिजाइन करने और बनाने की क्षमता है।
- इस सिस्टम को डीआरडीओ के प्रीमियर लैबरेटरी, नेवल साइंस एंड टेक्नॉलजी लैबरेटरी (NSTL) ने विकसित किया है।
- इस टॉरपीडो का वजन 1.25 टन है और यह 40 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से 250 किलोग्राम विस्फोटक लेकर जा सकता है।

### असम में बाढ़ से राहत हेतु ऑपरेशन जलराहत आरंभ

सैन्य बलों एवं राज्य सरकार द्वारा असम स्थित नारंगी कैंट में बाढ़ राहत अभियान 'जलराहत' आरंभ किया गया। यह अभ्यास 30 जून तक चलाया जायेगा।

- जलराहत में गजराज सैन्य टुकड़ी द्वारा बाढ़ राहत प्रबंधन हेतु शहरी क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त सैन्य कर्मियों को भेजा गया। राहत अभियान का यह नाम भारतीय सेनाओं के तीनों रूपों थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना के नाम को मिलाकर रखा गया।

### विश्व बैंक ने इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2016 जारी किया

विश्व बैंक के भारत में निदेशक ओनो रुहल ने 20 जून 2016 को "इंडिया डेवलपमेंट अपडेट" जारी किया। शहरी क्षेत्रों में सेवाओं की डिलीवरी बेहतर बनाने पर जोर देना चाहिए।

- भारत की विकास दर साल 2016-17 में 7.6 फीसदी रहेगी, जबकि 2017-18 में यह 7.7 फीसदी और 2018-19 में 7.8 फीसदी हो सकती है।

### एलआईसी के चेयरमैन एसके राँय का इस्तीफा

सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एलआईसी के चेयरमैन एसके राँय ने इस्तीफा दे दिया है। राँय के कार्यकाल में अभी भी 2 साल का वक्त बचा था।

- राँय ने आधिकारिक रूप से अपना इस्तीफा दे दिया है और वित्त मंत्रालय इसे स्वीकार करने के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के पास भेजेगा।
- राँय बीमा कंपनी के साथ तीन से अधिक दशकों से थे तथा बैंक बढ़ने के साथ 2013 में अध्यक्ष नियुक्त किए गये थे।

### अवीक सरकार ने एबीपी ग्रुप के मुख्य संपादक पद से इस्तीफा दिया

अवीक सरकार ने आनंद बाज़ार पत्रिका (एबीपी) एवं द टेलीग्राफ से मुख्य संपादक पद से इस्तीफा दिया है। वे समूह के चेयरमैन पद पर कार्यरत रहेंगे। उनके स्थान पर अरुण सरकार यह पद संभालेंगे।

- अनिर्बान भट्टाचार्य को आनंद बाज़ार पत्रिका का संपादक नियुक्त किया गया जबकि आर राजगोपालन को द टेलीग्राफ का संपादक बनाया गया।
- अवीक सरकार अब संपादक (अवकाश प्राप्त) और कंपनी के वाइस चेयरमैन के रूप में सलाहकार की भूमिका निभाएंगे।

## व्यापार व अर्थजगत

### RBI मौद्रिक नीति समीक्षा, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं

आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने 2016-17 की द्वैमासिक नीतिगत समीक्षा में दूसरी मुद्रास्फीति बढ़ने के जोखिम का उल्लेख करते हुए अपनी मुख्य नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखीं हैं।

- रिजर्व बैंक ने अपने अल्पकालिक ऋण पर ब्याज (रेपो) को 6.5 प्रतिशत, रिवर्स रेपो को 6 प्रतिशत, एमएसएफ तथा बैंक रेट को 7 प्रतिशत और बैंकों पर लागू आरक्षित-नकदी भंडार की अनिवार्यता 4 प्रतिशत पर फिलहाल बरकरार रखा है।

### भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच 120 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 120 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ओडिशा में सिंचाई के आधुनिकीकरण और जल प्रबंधन सुधार के लिए किया गया।

- उपरोक्त ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से संयुक्त सचिव (बहुपक्षीय संस्थान), आर्थिक मामलों के विभाग श्री राजकुमार तथा एशिया विकास बैंक की भारत रेजिडेंट मिशन की कंट्री डायरेक्टर सुश्री एम. टेरेसा खो ने हस्ताक्षर किए हैं।
- यह ऋण ओडिशा एकीकृत सिंचाई कृषि तथा जल प्रबंधन निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत 157.5 मिलियन डॉलर की वित्तीय सुविधा का दूसरा भाग है। निवेश के लिए चयनित क्षेत्र हैं वेतरणी, ब्राह्मणी, बुढाबालंगा, सुबणरिखा नदी बेसिन तथा महानदी डेल्टा।

### सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड योजना को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हेतु रिजर्व बैंक ने मंजूरी दी

एशिया के सबसे पुराने एक्सचेंज बंडर्ड शेयर बाजार को सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) योजना हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बोली लगाने की मंजूरी मिल गई है।

- यह बॉन्ड सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक जारी करता है और रिजर्व बैंक द्वारा बताए गए दाम पर निवेशक इनके लिए आवेदन कर सकते हैं।

### विश्व बैंक ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को घटाकर किया 7.6%

विश्व बैंक ने 2016 में भारत के लिए आर्थिक वृद्धि अनुमान में मामूली कमी करते हुए कहा कि यह दर 7.6 प्रतिशत रहेगी।

- विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट 'वैश्विक आर्थिक परिदृश्य' में इस साल वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 2.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
- यह कमजोर वृद्धि इस जरूरत को रेखांकित करती है कि देशों के लिए आर्थिक वृद्धि को बल देने वाली नीतियां जारी रखना कितना महत्वपूर्ण है। ऐसी नीतियां जो अति गरीबी में रह रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार करें।
- वैश्विक वृद्धि अनुमान में 0.5 प्रतिशत की मामूली कमी विकसित देशों में नरम मांग, जिस कीमतों में नरमी तथा कमजोर वैश्विक व्यापार के कारण की गई है।

### एक्सिस बैंक का ग्रीन बॉण्ड लंदन शेयर बाजार में सूचीबद्ध

निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक एक्सिस बैंक ने लंदन शेयर बाजार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित एशिया का पहला ग्रीन बॉण्ड जारी कर पाँच अरब डॉलर पूँजी जुटाई है।

- बैंक ने बताया कि ग्रीन बॉण्ड से प्राप्त पूँजी का इस्तेमाल हरित ऊर्जा, परिवहन और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के विकास में किया जाएगा।

### अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने श्रीलंका के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है।

- आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा 36 महीने की विस्तारित निधि सुविधा हेतु श्रीलंका को विशेष निकासी अधिकार प्रदान किया गया।
- इस विषय में 168.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रारंभिक संवितरण तुरंत किया जाएगा। बाकी राशि छह माह की अवधि में दी जाएगी।

### भारतीय डाक सेवा ने भारतीय डाक भुगतान बैंक हेतु लोगो और टैगलाइन डिजाइन प्रतियोगिता आरम्भ की

डाक विभाग ने अपने प्रस्तावित पेमेंट बैंक हेतु लोगो डिजाइन तथा टैगलाइन (ध्येय वाक्य) हेतु प्रतिस्पर्धा माइ गाव वेबसाइट पर आरम्भ की है।

- इसके लिए डाक विभाग ने आम जनता से 9 जुलाई तक प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। प्रतियोगिता में सभी भारतीय नागरिकों, संस्थानों, एजेंसियों और संस्थान भाग ले सकते हैं।
- प्रख्यात डिजाइनर तथा विशेषज्ञ 20 बेहतरीन प्रविष्टियों का चयन करेंगे। चयन के बाद विजेता चुनने के लिए माई गाव प्लेटफॉर्म पर वोटिंग के लिए रखा जाएगा। विजेता को 50,000 रुपए पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

### एसबीआई, कैक्स बैंक के बीच करार

भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई तथा स्पेन के कैक्सा बैंक ने भारत-स्पेन के संयुक्त उद्यम तथा स्थानीय उपक्रमों को ऋण प्रदान करने का करार किया है।

- एसबीआई और कैक्सा बैंक ने कारोबारी तालमेल बढ़ाने के लिए सहमति ज्ञापन एमओयू पर दस्तखत किए हैं।
- करार के तहत दोनों बैंक के गारंटी लेन-देन कारोबार का विस्तार करेंगे। इसके तहत वे संयुक्त रूप से भारत-स्पेन के संयुक्त उद्यमों तथा भारतीय स्थानीय उपक्रमों को संयुक्त रूप से ऋण प्रदान करेंगे।
- बैंक कारोबारी अवसरों को पेश कर तथा संभावित बुनियादी ढांचा कोष पर भागीदारी के जरिए भी सहयोग करेंगे।

**टाटा पावर ने वेलस्पून रिन्यूवेब्ल्स के अधिग्रहण हेतु समझौता किया**

टाटा पावर कॉर्पोरेट लिमिटेड द्वारा 12 जून 2016 को अक्षय उर्जा कम्पनी वेलस्पून रिन्यूवेब्ल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। इस समझौते में 9900 करोड़ रुपये का सौदा तय किया गया।

- टाटा पावर की सब्सिडीयरी कंपनी टाटा पावर रिन्यूवेबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा वेलस्पून रिन्यूवेब्ल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

**अमेजन बनी सेलर्स की पसंदीदा वेबसाइट, फ्लिपकार्ट-स्नैपडील पीछे: स्टडी**

अमेजन ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचने वालों के लिए सबसे पसंदीदा ई-कॉमर्स वेबसाइट बन गई है। इसके बाद फ्लिपकार्ट और स्नैपडील का नंबर आता है। यह खुलासा नीलसन ने अपनी ताजा स्टडी में किया है।

- नीलसन द्वारा की गई जनवरी-मार्च क्वार्टर स्टडी में 1,184 ऑनलाइन सेलर्स के बीच सर्वे किया गया है।
- इसमें बताया गया है कि करीब 39 फीसदी ऑनलाइन सेलर्स दो या उससे ज्यादा ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर प्रोडक्ट सेल करते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं।

**आरबीआई गवर्नर पद के लिए चयन समिति का गठन**

सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कैबिनेट सचिव पी के सिन्हा की अध्यक्षता में एक चयन समिति बनाई है।

- इस संबंध में निर्णय वित्त मंत्री के साथ विचार-विमर्श के बाद प्रधानमंत्री द्वारा पहले लिया गया था।

**50 हजार रुपए तक की PF निकासी पर 1 जून से मिलेगी बड़ी राहत**

सरकार ने भविष्य निधि में पांच वर्ष तक अंशदान करने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए कुल जमा राशि की निकासी के लिए स्रोत पर कर (टीडीएस) की सीमा 30 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी है। भविष्यनिधि में पांच वर्ष या

उससे कम अवधि के लिए अंशदान करने वाले कर्मचारियों के अपना धन निकालने पर 50 हजार रुपए तक किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी।

- अब भविष्य निधि में पांच वर्ष से अधिक अवधि के बाद कर्मचारियों को पीएफ की निकासी करने पर कोई कर नहीं देना पड़ेगा। यह आदेश 1 जून 2016 से लागू है।

### नोमुरा ने चालू वित्त में भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर किया 7.7 प्रतिशत

नोमुरा ने 2016-17 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि के अपने पहले के अनुमान को हल्का घटाकर 7.7 प्रतिशत कर दिया है। पहले इस वित्तीय सेवा फर्म ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। इसने अपने अनुमानों में कहा कि फिलहाल निर्यात या निजी पूंजी निवेश व्यय में कोई सुधार होने के संकेत नहीं हैं।

- सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2015-16 की अंतिम तिमाही, में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की जिससे पूरे वित्त वर्ष की वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत हो गयी।
- नोमुरा ने कहा कि आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों से पता चलता है कि सुधार धीरे-धीरे हो रहा है लेकिन यह मुख्य तौर पर निजी खपत से प्रेरित है।

### विश्व बैंक ने की 'नगर बस सेवा परियोजना' के लिए 92 लाख डॉलर की पेशकश

सरकार ने विश्व बैंक की इकाई आईबीआरडी के साथ वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा (जीईएफ) अनुदान के लिए 92 लाख डॉलर के एक समझौते को आधिकारिक स्वरूप प्रदान किया।

- इस अनुदान का इस्तेमाल जयपुर, भोपाल एवं चंडीगढ़ समेत चार शहरों में प्रभावी और पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ 'नगर बस सेवा परियोजनाओं' को क्रियान्वित करने में किया जाएगा।
- इस पूरी परियोजना की लागत 11.3 करोड़ डॉलर है जिसमें से 92 लाख डॉलर जीईएफ के माध्यम से प्राप्त होगा और 10.307 करोड़ डॉलर भारत सरकार, राज्य सरकारें और नगर प्रशासन द्वारा दिए जाएंगे ताकि बसों और उससे जुड़े बुनियादी ढांचों का वित्तपोषण किया जा सके।

### भारत-मोरक्को वाणिज्य और उद्योग चैंबर का उद्घाटन

उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भारत-मोरक्को के बीच व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देने के लिए रबात में मोरक्को के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला बेंकिराने के साथ भारत-मोरक्को वाणिज्य और उद्योग चैंबर का उद्घाटन किया।

- यह भारत और मोरक्को दोनों देशों के बीच आर्थिक विकास की गति में तेजी से सहायक बनेगा।

- यह चैंबर व्यापार और निवेश में आपसी संबंध मज़बूत करने हेतु यह एक नयी पहल है।

### केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार की 100 प्रतिशत इक्विटी के साथ डाक विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

- देश में औपचारिक बैंकिंग की परिधि से बाहर जनसंख्या के करीब 40 प्रतिशत नागरिक इस परियोजना से लाभान्वित होंगे तथा कुल खर्च 800 करोड़ होगा।

### झारखंड में सड़कों के विकास के लिए एडीबी से हुआ समझौता

झारखंड में सड़कों के विकास के लिए भारत सरकार और एशियन डवलपमेंट बैंक (एडीबी) के बीच झारखंड में 176 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को लेकर 200 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है।

- इस समझौते के तहत झारखंड में चार सड़कों का पुनरुद्धार होगा तथा सड़क नेटवर्क के डिजायन व सुरक्षा में वृद्धि होगी।

### डीसीबी बैंक का आधार सक्षम एटीएम बैंगलोर में लांच

डीसीबी बैंक ने बेंगलुरु में आधार सक्षम एटीएम शुभारंभ किया जो नकदी वितरित करने के लिए एटीएम / डेबिट कार्ड और पिन के बजाय आधार संख्या और अंगुली की छाप (बायोमेट्रिक) स्वीकार करता है।

- "कार्डलैस और पिन लैस" एटीएम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणी द्वारा लांच किया गया।

### माइक्रोसॉफ्ट ने 26.3 बिलियन डॉलर में लिंकडइन को खरीदा

माइक्रोसॉफ्ट ने सोमवार को प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंकडइन को 26.2 अरब डॉलर में खरीदने की घोषणा की। यह सौदा पूरी तरह नकदी में होगा और इसके सोशल मीडिया क्षेत्र का सबसे बड़ा अधिग्रहण माना जा रहा है।

- माइक्रोसॉफ्ट लिंकडइन के प्रत्येक शेयर के लिए 196 डॉलर का भुगतान करेगी, जो 10 जून को बंद हुए भाव से 49.5 फीसदी अधिक है।
- कंपनी ने अपने बयान में कहा कि लिंकडइन अपना अलग ब्रांड, अपनी अलग संस्कृति और स्वतंत्रता बरकरार रखेगी और जेफ वीनर लिंकडइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने रहेंगे।

### 5 एसोसिएट बैंकों का एसबीआई में होगा विलय, सरकार ने दी मंजूरी

सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके एसोसिएट बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी।

- देश के सबसे बड़ा बैंक एसबीआई ने पिछले महीने अपने पांच अनुषंगी बैंकों के स्वयं में विलय तथा भारतीय महिला बैंक के अधिग्रहण का विचार रखा था।
- विलय के बारे में एसबीआई बैंकिंग के क्षेत्र में दिग्गज संस्थान होगा जो दुनिया में प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। उसका संपत्ति आधार 37000 अरब रुपये (37 लाख करोड़ रुपये) या 555 अरब डालर से अधिक होगा। साथ ही शाखाओं एवं एटीएम की संख्या क्रमशः 22,500 तथा 58,000 होगी।
- फिलहाल एसबीआई की शाखाओं की संख्या 16,500 है। इसमें 36 देशों में फैले 191 विदेशी कार्यालय शामिल हैं।

### क्यूबा में उपयोग के लिए फ्लोरिडा बैंक ने पहली बार अमेरिकी क्रेडिट कार्ड जारी किया

एक छोटे क्षेत्रीय फ्लोरिडा बैंक, स्टोनगेट बैंक ने पहला ऐसा क्रेडिट कार्ड जारी करके इतिहास रच दिया है जिसे क्यूबा में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कार्ड अमेरिकियों के लिये क्यूबा की यात्रा और वहां काम करना आसान कर सकता है।

- अब तक, अमेरिकियों को आम तौर पर क्यूबा में नकदी ले जाने और राज्य संस्थाओं से या स्थानीय लोगों के साथ अनौपचारिक एक्सचेंजों में डॉलर पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगाकर स्थानीय मुद्रा में बदलवाना पड़ता था।

### एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए 200 करोड़ रुपए के कोष की स्थापना की

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने वित्तीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए के कोष की स्थापना की है।

- फंड बैंकिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए भारत में अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में पंजीकृत किसी भी संस्था के लिए 3 करोड़ रुपये तक कवर करेगा।

### एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ में होगा मैक्स लाइफ, मैक्स फिन का विलय

देश में निजी बीमा कंपनियों के बीच अब तक का सबसे बड़ा विलय-अधिग्रहण सौदा होने जा रहा है। मैक्स लाइफ इश्योरेंस और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इश्योरेंस में विलय की घोषणा की गई है।

- कंपनियों के बीच प्रस्तावित विलय करोड़ 1 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति के साथ एक इकाई का निर्माण करेगा।
- संस्थाओं का संयोजन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को ओवरटेक कर लेगा।
- निदेशक मंडलों ने परस्पर बातचीत की गोपनीयता, निजता और यथा स्थिति रखने के समझौता के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।



### बोइंग और टाटा हैदराबाद में बनाएंगे अपाचे का ढांचा

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आदिबाटला शहर के बाहरी हिस्से में स्थित अंतरिक्ष विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में टाटा बोइंग एयरोस्पेस लिमिटेड (टीबीएएल) की आधारशिला रखी।

- 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देते हुए दिग्गज अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) ने बोइंग एएच-64 अपाचे हेलीकॉप्टर के ढांचे व अंतरिक्ष संबंधित अन्य ढांचों के उत्पादन के लिए हैदराबाद में एक संयंत्र स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है।
- हैदराबाद का यह संयंत्र एएच-64 का ढांचा तैयार करने वाला दुनिया का अकेला संयंत्र होगा। एच-64 दुनिया का सबसे उन्नत बहुउद्देश्यीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और अमेरिकी सेना सहित कई अन्य देशों की सेनाएं इसका इस्तेमाल करती हैं, जिसमें भारत भी शामिल है।

### भारत और बंगलादेश के बीच संशोधित अंतर्देशीय जल परिवहन और व्यापार पारगमन सुविधा आरम्भ

बांग्लादेश के जहाजरानी मंत्री शाहजहां खान ने आशुगंज में भारतीय उच्चायुक्त हर्षवर्धन श्रृंगला की उपस्थिति में ऑपरेशन का उद्घाटन किया।

- कोलकाता से एक हजार टन इस्पात और लोहे की चादरें लेकर एक जहाज बंगलादेश में आशुगंज की नदी बंदरगाह पहुंचा। इस इस्पात को बांग्लादेश के रास्ते त्रिपुरा में भेजा जाएगा।

माइक्रोसॉफ्ट और एआईसीटीई ने 'स्वयं' मंच के लिए एप्लिकेशन के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए और माइक्रोसॉफ्ट को ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए अपने तकनीकी भागीदार के रूप में चुना है।

- ऑनलाइन पाठ्यक्रम कार्यक्रम को 'स्वयं'(स्टैंडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स) के रूप में नामित किया गया है।
- 2,000 बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किये जायेंगे।
- 3 करोड़ से अधिक छात्रों और जनता को पाठ्यक्रम के तहत पोषित किया जाएगा।

### केंद्र सरकार ने रक्षा एवं नागरिक उड्डयन में सौ प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सिविल एविएशन में भी सरकार ने 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी।

- ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में भी नियमों में संशोधन करते हुए निवर्तमान एफडीआई को 49 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।
- रक्षा क्षेत्र में आर्म्स एक्ट 1959 के अनुसार छोटे हथियार और उसके पार्ट्स में ही एफडीआई लागू होगा।

### क्लस्टर बम' निर्माताओं के वित्तपोषण के लिए भारतीय स्टेट बैंक 'हॉल ऑफ शेम' की सूची में शामिल

सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को क्लस्टर बम बनाने वाली कंपनियों में निवेश के लिए 158 बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों वाली "हॉल ऑफ शेम" यानी बदनामों की सूची में शामिल किया गया है।

- सूची में वैश्विक दिग्गज कंपनियां मसलन जे पी मॉर्गन, बार्कलेज, बैंक ऑफ अमेरिका और क्रेडिट सुइस शामिल हैं। एसबीआई इस सूची में एकमात्र भारतीय संस्थान है।
- इन संस्थानों ने जून 2012 से अप्रैल 2016 के बीच क्लस्टर बम बनाने वाली सात कंपनियों में 28 अरब डॉलर का निवेश किया है।

### भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान सिस्टम का ढांचा जारी किया

रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपना बहुप्रतीक्षित 'विजन 2018' दस्तावेज जारी किया है।

- 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: विजन 2018' का उद्देश्य 'कम-नकदी' भारत की सबसे अच्छी भुगतान और निपटान प्रणाली का निर्माण और बेसिक फोन उपयोगकर्ताओं के लिए भी मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग सुनिश्चित करना है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के विजन डॉक्यूमेंट का उद्देश्य कागज आधारित समाशोधन उपकरणों को कम करना है।

### टेक महिंद्रा ने ब्रिटेन की बीआईओ एजेंसी का अधिग्रहण किया

टेक महिंद्रा ने ब्रिटेन की बीआईओ एजेंसी (बीआईओ) का 4.5 करोड़ पाउंड के नकदी सौदे में अधिग्रहण किया है।

- जिससे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी को अपने डिजिटल सेवा पोर्टफोलियो के विस्तार में मदद मिलेगी। टेक महिंद्रा ने नकदी सौदे में महिंद्रा बीआईओ के 100 प्रतिशत शेयरों का अधिग्रहण करेगी।
- टेक महिंद्रा ने यह सौदा जुलाई 2016 के पहले सप्ताह में पूरा होने की उम्मीद है।

### एडीबी ने बिहार में नदी पर पुल के लिये 500 मिलियन डॉलर मंजूर किये

फिलिपिंस के मनिला में स्थित बहुपक्षीय ऋण एजेंसी, एशियाई विकास बैंक ने बिहार में गंगा नदी पर पुल के लिये 500 मिलियन डॉलर मंजूर किये हैं।

- ऋण का उपयोग बिहार में गंगा नदी पर 9.8 किलोमीटर रोड ब्रिज बनाने में किया जायेगा जो पूर्ण होने पर नदी पर बना भारत का सबसे बड़ा पुल होगा।
- यह पुल राज्य के उत्तरी व दक्षिणी हिस्से तथा नेपाल के बीच महत्वपूर्ण परिवहन सुविधा उपलब्ध करायेगा।

### AIIB ने चार देशों में परियोजनाओं के लिए पहला ऋण किया मंजूर

बीजिंग के AIIB ने चार देशों में चार परियोजनाओं के लिए 50.9 करोड़ डॉलर वितरित किए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और ताजिकिस्तान को चीन प्रायोजित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) से पहला कुल 50.9 करोड़ डॉलर का ऋण मंजूर किया गया है।

- चार परियोजनाओं के लिए इन ऋणों को एआईआईबी के निदेशकों की बीजिंग, चीन में अपने मुख्यालय में आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया।
- AIIB की स्थापना पिछले साल 100 अरब डॉलर की अधिकृत पूंजी के साथ की गई थी। 26.6 प्रतिशत वोटिंग शेयरों के साथ चीन सबसे बड़ा शेयरधारक है। भारत 7.5 प्रतिशत हिस्से के साथ दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। रूस का बैंक में हिस्सा 5.93 प्रतिशत है, जबकि जर्मनी के पास 4.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

### विश्व बैंक ने झारखंड में किशोर कन्याओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हेतु 63 मिलियन डॉलर की राशि मंजूरी की

विश्व बैंक ने झारखंड में आरंभ किये गये कार्यक्रम, 'तेजस्विनी: किशोर बालिकाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण', हेतु 63 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है।

- तेजस्विनी भारत में विश्व बैंक की सहायता से आरंभ किया गया पहला कार्यक्रम है जो युवा कन्याओं एवं महिलाओं के कल्याण हेतु कार्य करता है।
- इस कार्यक्रम में 14 से 24 वर्ष की आयु की कन्याओं को सेकेंडरी स्तर की शिक्षा दिलाने में सहायता की जाएगी। उन्हें रोजगार दिलाने हेतु उचित कौशल विकास कार्यक्रम भी सिखाये जायेंगे।

### रियो ओलंपिक में अमूल बना भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक

भारत के सबसे बड़े खाद्य उत्पाद मार्केटिंग संगठन-अमूल ने रियो ओलंपिक में भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक बनने की घोषणा की।

- अमूल द्वारा इस सहयोग को प्रचारित करने के लिए आगामी महीनों में दूध एवं विभिन्न डेयरी उत्पादों के लिए विज्ञापन अभियानों की सीरीज लॉन्च की जायेगी।
- अमूल ने 'ईट मिल्क विद एवरी मील' कैम्पेन शुरू किया है।

## नियुक्तियां

### उमंग बेदी भारत में फेसबुक के प्रबंध निदेशक नियुक्त

फेसबुक ने अपने भारतीय परिचालन के लिए उमंग बेदी को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है।

- फेसबुक ने एक बयान में कहा कि उमंग कतिगा रेडडी का स्थान लेंगे। कतिगा कंपनी के अमेरिका स्थित मुख्यालय में नई जिम्मेदारी संभालेंगी।
- बेदी इससे पहले एडोब में प्रमुख कार्यकारी रह चुके हैं।

### अशोक गणपति एयरटेल बिज़नेस के निदेशक नियुक्त

अशोक गणपति को भारती एयरटेल लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया है।

- वे 1 जुलाई 2016 से यह पद ग्रहण करेंगे। इस दौरान अशोक एयरटेल के बी2बी पोर्टफोलियो का विकास करेंगे। यह पोर्टफोलियो विभिन्न कम्पनियों, सरकारी संस्थाओं एवं कॉरपोरेट इकाईयों के साथ काम करता है।
- गणपति को मनीष प्रकाश के स्थान पर नियुक्त किया गया है। वे भारती एयरटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक गोपाल विट्टल (भारत एवं दक्षिण एशिया) को रिपोर्ट करेंगे।

### कुलमीत बावा एडोब दक्षिण एशिया के एमडी नियुक्त

एडोब ने कुलमीत बावा को कम्पनी के दक्षिण एशिया क्षेत्र का प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त किया है।

- वे 24 जून 2016 से कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में बावा भारत में एडोब के सेल्स प्रमुख हैं।
- बावा, उमंग बेदी का स्थान लेंगे, बेदी पांच वर्ष तक कम्पनी में कार्यरत रहे।
- बावा एडोब के एशिया पसिफिक के अध्यक्ष पॉल रोब्सन को रिपोर्ट करेंगे। वे एडोब के उपभोक्ता से प्रत्यक्ष बिजनेस स्थापित करने वाले विभाग का नेतृत्व करेंगे।

### दीया मिर्जा 'स्वच्छ साथी' अभियान के ब्रांड एंबेसडर बनी

बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा को 'स्वच्छ साथी' छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का एम्बेसेडर नामित किया गया है।

- यह 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत एक युवा आधारित अभियान है।
- दीया एक युवा आइकॉन है और ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए वह सर्वश्रेष्ठ शख्स होंगी।

### शाहिद रसूल एशिया के राष्ट्रमंडल शैक्षिक मीडिया सेंटर के निदेशक नियुक्त

संचार प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ शाहिद रसूल ने एशिया राष्ट्रमंडल शैक्षिक मीडिया सेंटर के निदेशक का पद ग्रहण किया है।

- रसूल सीईएमसीए को दूरस्थ शिक्षा के लिए शैक्षिक संसाधनों का उचित उपयोग करने हेतु गाइड करेंगे।
- इससे पहले वे कश्मीर यूनिवर्सिटी में शैक्षिक मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर के निदेशक थे।

**नरेश गोयल फिर से आईएटीए के निदेशक बने**

निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश गोयल को आईएटीए के निदेशक मंडल में फिर से चुना गया है।

- अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ आईएटीए के निदेशक मंडल में गोयल का यह लगातार पांचवा कार्यकाल होगा। इस मंडल में गोयल भारत से इकलौते प्रतिनिधि हैं।

**सत्यपाल जैन विधि आयोग के सदस्य बने**

अपर महा सालिसिटर एवं चंडीगढ़ के पूर्व सांसद सत्य पाल जैन को भारत के 21 वें विधि आयोग का अंशकालिक (पार्ट-टाईम) सदस्य नियुक्त किया गया है।

- उनकी ये नियुक्ति उनके वर्तमान पद, भारत के अपर महा सालिसिटर के अतिरिक्त होगी और वे अब दोनों पदों पर काम करेंगे।
- सत्य पाल जैन एक जाने-माने संविधान विशेषज्ञ तथा भाजपा नेता हैं।
- देश के राष्ट्रपति ने गत वर्ष 14 सितम्बर, 2015 को इस आयोग का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. बीएस चौहान इसके अध्यक्ष हैं।

**राकेश रंजन बने मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश**

मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राकेश रंजन प्रसाद ने मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया है।

- न्यायमूर्ति प्रसाद ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश लक्ष्मी कांत महापात्रा का स्थान लिया है। न्यायमूर्ति महापात्रा ने गत नौ जून को अपना पद त्याग दिया था।
- 9 फरवरी को प्रसाद का झारखंड हाईकोर्ट से मणिपुर हाईकोर्ट स्थानांतरण किया था। राष्ट्रपति मुखर्जी ने संविधान के अनुच्छेद 222 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के उपरांत न्यायमूर्ति प्रसाद का झारखंड हाईकोर्ट से मणिपुर हाईकोर्ट स्थानांतरण किया।

**वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक लवासा वित्त सचिव नामित**

कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक लवासा को वित्त सचिव नामित किया गया है।

- लवासा इस समय व्यय सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
- 1980 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी को रतन वटल के रिटायरमेंट के बाद पर्यावरण मंत्रालय से वित्त मंत्रालय भेजा गया था।
- वटल को नीति आयोग का प्राधान सलाहकार नियुक्त किया गया है।

### नवीन अग्रवाल बने नाडा प्रमुख

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नवीन अग्रवाल को भारत में डोपिंग मुक्त खेलों से जुड़ी संस्था राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) का प्रमुख नियुक्त किया गया।

- अग्रवाल वर्तमान में कैडर जम्मू-कश्मीर कैडर में काम कर रहे हैं। वह एक 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।
- नाडा राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, जो समन्वय को बढ़ावा देने और भारत में खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

### एनके चारी स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के नए प्रबंध निदेशक

एनके चारी ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।

- अपनी नई नियुक्ति से पहले वह भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक थे।
- चारी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय बैंकिंग समूह में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य किया था।
- उन्होंने चार साल के लिए नेपाल एसबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

### नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए नामित

मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) की सदस्यता के लिये नामित किया गया है।

- यदि उन्हें आईओसी सत्र में चुना जाता है तो वह दुनिया की सर्वोच्च खेल संस्था में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन जाएंगी।
- चुनाव दो से चार अगस्त के बीच रियो डि जेनेरियो में 129वें आईओसी सत्र में होंगे। नीता अंबानी इससे पहले भी देश में खेलों के विकास के कार्यक्रमों से जुड़ी रही हैं।

### सीआर शशिकुमार स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के एमडी बने

सीआर शशिकुमार ने स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर जो भारतीय स्टेट बैंक के पांच सहयोगी बैंकों में से एक है, के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।

- एसबीटी में नई नियुक्ति से पहले वह हैदराबाद में उप प्रबंध निदेशक, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा प्रबंधन, एसबीआई कारपोरेट केंद्र में कार्यरत थे।
- उन्होंने 1978 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और तब से कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।

### पूर्व केंद्रीय मंत्री वी नारायणसामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

पूर्व केंद्रीय मंत्री वी. नारायणसामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।

- उन्हें राज्यपाल किरण बेदी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन पुडुचेरी के बीच रोड के नजदीक ही गांधी स्मारक राजनिवास के प्रांगण में किया गया।
- इस पद के पहले भी नारायणसामी कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं जिनमें प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री समेत कई अहम पद हैं।
- उनके अलावा नमसिवायम, शाहजहां, कंडासामी, कमलमानन और मलादी कृष्णा राव ने भी मंत्री पद की शपथ ली है।

### रानु लंगथासा असम में एनसीएचएसी की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त

रानु लंगथासा को सर्वसम्मति से उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद (एनसीएचएसी) का अध्यक्ष चुना गया है।

- इससे वह 1950 से लेकर अब तक इस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनीं।
- इसे एक संक्षिप्त राज्य के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है क्योंकि इसमें लघु विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका की तरह एक सरकार के सभी अंग मौजूद हैं।
- संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार 29 अप्रैल 1952 को दीमा हासो जिला परिषद् एक स्वायत्त परिषद के रूप में उभरा।

### फिजी के पीटर थॉमसन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा फिजी के पीटर थॉमसन को 71वें अधिवेशन के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

- उन्होंने सायप्रस के एंड्रियास मैत्रोयिआववनिस को 90 के मुकाबले 94 वोटों से हराया।
- थॉमसन 71वीं सभा के लिए सितम्बर 2016 से कार्यकाल आरम्भ करेंगे। वे महासभा के वर्तमान अध्यक्ष मोगेंस लायकतोफ्ट के स्थान पर निर्वाचित होंगे।

### वरिष्ठ आईएस अधिकारी सुप्रिया साहू दूरदर्शन की महानिदेशक नियुक्त

वरिष्ठ आईएस अधिकारी सुप्रिया साहू को दूरदर्शन की महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पूर्णकालिक महानिदेशक होगी।

- मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने पद के लिए साहू को नियुक्त करने की मंजूरी दे दी।
- वह, अपर्णा वैश्य जो दूरदर्शन की कार्यकारी अध्यक्ष थी, की जगह लेगी। त्रिपुरारी शरण दूरदर्शन की पिछली पूर्णकालिक महानिदेशक थी जिन्होंने जुलाई 2014 में पद छोड़ दिया था।

### सुनील भारती मित्तल इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नियुक्त

भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को 16 जून 2016 को इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) का अध्यक्ष चुना गया। उनका चुनाव ब्राजील स्थित साओ पाओलो में हुए मतदान में किया गया।

- मित्तल इस पद पर टेरी मैकग्रॉ का स्थान लेंगे, मैकग्रॉ एसएंडपी ग्लोबल के मानद अध्यक्ष हैं।
- विश्व के सबसे पुराने वैश्विक औद्योगिक मंडलों में से एक, इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के इतिहास में मित्तल तीसरे भारतीय उद्योगपति हैं जिन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया।

### ओबामा ने भारतीय मूल की अमेरिकी को मलेशिया की राजदूत नामित किया

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मूल की राजनयिक कमला शिरीन लखधीर को मलेशिया में अमेरिका की अगली राजदूत के तौर पर नामित किया है। वह मलेशिया में अमेरिका की अगली राजदूत होंगी। वह जोसेफ वाई युन की जगह लेंगी।

- लखधीर 2011 से 2015 तक राजनीतिक मामलों के लिए विदेश उप मंत्री के कार्यकारी सहायक के तौर पर विदेश सेवा वर्ग के काउंसलर की एक करियर सदस्य थीं।
- लखधीर 2009 से 2011 के दौरान बेलफास्ट, उत्तरी आयरलैंड, ब्रिटेन में अमेरिका की महावाणिज्यदूत के तौर पर सेवा दे चुकी हैं।

### चेतन चौहान एनआईएफटी अध्यक्ष नामित

भाजपा के पूर्व सांसद चेतन चौहान, जो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेले हैं, को फैशन टेक्नोलॉजी के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

- वह दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के उपाध्यक्ष भी है।

### मेजर जनरल शर्मा टाइगर डिवीजन के नए जीओसी



मेजर जनरल संजीव कुमार शर्मा ने जम्मू स्थित टाइगर डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के तौर पर पदभार संभाला है। मेजर शर्मा ने मेजर जनरल संजीव नारायण से कमान संभाली है।

- शर्मा ने पिछले 3 दशक से सेना में उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के पूर्व छात्र हैं और प्रतिष्ठित उच्चतर रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम एवं राष्ट्रीय रक्षा पाठ्यक्रम भी पूरा कर चुके हैं।

### बिपिन आर पटेल गुजरात वाणिज्य और उद्योग चैंबर के अध्यक्ष बने

बिजनेसमैन बिपिन आर पटेल को 2016 -17 के लिए गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCCI) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वह रोहित जे पटेल की जगह लेंगे।

- इस संबंध में निर्णय GCCCI की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान लिया गया। एक अन्य घटनाक्रम में, शैलेश पटवारी को चैम्बर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

### वर्जीनिया राजी रोम की पहली महिला मेयर बनीं

रोम में हुए स्थानीय चुनावों में वर्जीनिया राजी पहली महिला मेयर चुनी गयीं। रोम के इतिहास में वे पहली महिला मेयर हैं।

- सरकार विरोधी आंदोलन 'फाइव स्टार मूवमेंट' की उम्मीदवार को रेंजी के सेंट्रल-लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडी) के उम्मीदवार रॉबर्टे गियाचेती के साथ कड़े मुकाबले में 67 प्रतिशत से अधिक वोट मिले। पेशे से वकील 37 वर्षीय राजी वर्ष 2018 में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए कदम बढ़ा सकती हैं।

### महेन्द्र सिंह धोनी एक्साइड इंश्योरेंस के ब्रांड अंबेसेडर नियुक्त

बीमा कंपनी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस ने भारतीय क्रिकेट टीम के सीमित ओवरों के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एंबेसेडर नियुक्त करने की घोषणा की है।

- धोनी अब एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस के अभियान 'लंबा साथ भरोसे की बात' का मंत्र आम जनता को देंगे। महेन्द्र सिंह धोनी का बीमा के क्षेत्र में यह पहला अनुबंध है।

### अनुपम पाहुजा को पेपाल के लिए प्रबंध निदेशक और भारतीय कारोबार का प्रबंधक नियुक्त किया गया

डिजिटल भुगतान प्लेटफार्म पेपाल ने अनुपम पाहुजा को अपना प्रबंध निदेशक और भारतीय कारोबार का प्रबंधक नियुक्त किया है।

- पाहुजा पहले कंपनी के एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी प्रमुख थे।
- पाहुजा पेपाल के भारतीय कारोबार के सभी मामलों के प्रमुख होंगे और देश में कंपनी के संचालन को और मजबूत करेंगे।

### अनिल कुंबले भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त

पूर्व भारतीय गेंदबाज़ एवं पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को 23 जून 2016 को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। वे वर्ष 2017 तक इस पद पर बने रहेंगे। वे इस पद पर रवि शास्त्री का स्थान लेंगे।

- कुंबले का चयन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की क्रिकेट सलाहकार समिति की सिफारिश पर किया गया। इस समिति में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण भी शामिल थे।
- बीसीसीआई ने इस पद हेतु विज्ञापन दिया था जिसके लिए 57 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। बाद में इस सूची को 21 उम्मीदवारों तक सीमित कर दिया गया। उनके अतिरिक्त मुथैया मुरलीधरन एवं शेन वॉर्न भी इस दावेदारी में शामिल थे।

### सीरिया के राष्ट्रपति असद ने इमाद खामिस को प्रधानमंत्री नियुक्त किया

सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद ने युद्ध से तबाह देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में बिजली मंत्री इमाद खामिस को नियुक्त किया है।

- सरकारी समाचार एजेंसी साना की सूचना के अनुसार असद ने एक नई सरकार के गठन के साथ खामिस खामिस को नियुक्त किया है।
- उन्हें आने वाले दिनों में नई मंत्रालयिक नियुक्तियों के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
- 54 वर्षीय इंजीनियर खमीस, वाएल अल-हलकी जो अगस्त 2012 के बाद से पद पर हैं, की जगह लेंगे।

### नोकिया ने संजय मलिक को भारतीय कारोबार का प्रमुख बनाया

प्रमुख मोबाइल हैंडसेट निर्माता कंपनी नोकिया ने संजय मलिक को अपने भारतीय कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल एक अगस्त से शुरू होगा।

- मौजूदा समय में मलिक नोकिया ग्लोबल सर्विसेज में नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन के प्रमुख हैं।
- अपनी नई भूमिका में मलिक ग्राहक परिचालन का नेतृत्व संभालेंगे और कंपनी के गुडगांव स्थित कार्यालय में बैठेंगे।

### दक्षिण सूडान में मानवाधिकार पर निगाह रखने वाली समिति की अध्यक्षता करेंगी भारतीय मूल की वकील

भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी वकील एवं मानवाधिकार कर्मी यास्मीन सूका को दक्षिण सूडान में मानवाधिकार की स्थिति पर निगाह रखने और उसमें सुधार करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए गठित संयुक्त राष्ट्र आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है।

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यास्मीन को वैश्विक मानवाधिकार मामलों का व्यापक तजुर्बा है और वह 'दक्षिण सूडान में मानवाधिकार पर आयोग' में अमेरिका के केन्नेथ स्कॉट तथा केन्या के गॉडफ्रे मुसिला के साथ काम करेंगी।

- समिति को दक्षिण सूडान में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर नजर रखने और संक्रमणकालीन न्याय, चिकित्सा और सुलह की प्रक्रिया के लिए सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है।

### लालचंद राजपूत अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त

पूर्व भारतीय बल्लेबाज लालचंद राजपूत को अफगानिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक की जगह लेंगे जिन्होंने अप्रैल में इस्तीफा दे दिया था।

- राजपूत के नाम की सिफारिश बीसीसीआई ने की थी। उन्होंने इस पद के लिए भारत के मोहम्मद कैफ, पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ, दक्षिण अफ्रीका के हर्शल गिब्स और वेस्टइंडीज के कोरी कोलीमोर को पछाड़ा।
- वे स्कॉटलैंड, आयरलैंड और नीदरलैंड के दौरे के लिए टीम से जुड़ेंगे।

### सुजाँय बोस NIIF के पहले सीईओ बने

सरकार ने सुजाँय बोस को नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का सीईओ नियुक्त किया है।

- सरकार द्वारा कहा गया है कि बोस की नियुक्ति एक तय सेलेक्शन प्रॉसेस द्वारा की गई है।
- बोस अभी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नुचेरल रिसोर्स एट इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के ग्लोबल को-हेड हैं।

### टीएनसीए के दोबारा अध्यक्ष बने श्रीनिवासन

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) की वार्षिक आम बैठक के दौरान लगातार 15वें साल राज्य क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया है।

- काशी विश्वनाथन को लगातार 10वें साल राज्य क्रिकेट संघ का सचिव चुना गया।

### अंजू बाबी जार्ज और पुलेला गोपीचंद को 'खेलो इंडिया' का सदस्य बनाया गया

भारत की एथलेटिक्स विश्व चैम्पियनशिप में एकमात्र पदक विजेता अंजू बाबी जार्ज और बैडमिंटन के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद को केंद्र सरकार के द्वारा देश में खेलों के विकास के लिये बनाये गये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम 'खेलो इंडिया' का सदस्य बनाया गया है।

- खेलो इंडिया एक सात सदस्यीय समिति है जिसमें अंजू और गोपीचंद दो खिलाड़ी हैं। पूर्व आल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियन गोपीचंद राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के कोच हैं। समिति की अध्यक्षता खेल सचिव राजीव यादव करेंगे।

### एनएस विश्वनाथन भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर

एनएस विश्वनाथन को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में एनएस विश्वनाथन के नाम पर मुहर लगाई।

- विश्वनाथन एचआर खान की जगह आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर होंगे। एचआर खान का कार्यकाल इसी साल 3 जुलाई को समाप्त हो रहा है।
- इससे पहले एनएस विश्वनाथन रिजर्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे थे।

**डब्ल्यूएचओ द्वारा पीटर सलमा विश्व स्वास्थ्य संगठन आपातकाल कार्यक्रम के प्रमुख नियुक्त**

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 28 जून 2016 को डॉ पीटर सलमा को स्वास्थ्य आपात स्थिति कार्यक्रम का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। वे 27 जुलाई 2016 से उप-महानिदेशक पद संभालेंगे।

- डॉ सलमा ऑस्ट्रेलिया से हैं एवं वर्तमान में यूनिसेफ के लिए मध्य-पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रीय निदेशक हैं।
- यह कार्यक्रम विभिन्न देशों को प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं एवं संघर्ष की स्थिति में सहायता प्रदान करने हेतु बनाया गया है।

**सुजुकी मोटर कॉर्प ने तोशिहिरो सुजुकी को सीईओ बनाया**

सुजुकी मोटर कॉर्प के निदेशक मंडल ने तोशिहिरो सुजुकी को कंपनी का अगला सीईओ नियुक्त किया है। तोशिहिरो चेरमैन ओसामू सुजुकी के बेटे हैं और उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। दरअसल, कंपनी टेस्टिंग घोटाले के भंवर से बाहर निकलना चाहती है।

- ओसामू सुजुकी ने इसी महीने कहा था कि सीईओ को वाहनों की टेस्टिंग के लिए अपनाए गए गलत तरीकों की जिम्मेदारी लेनी होगी, खास तौर पर माइलेज की गणना के मामले में।

## पुरस्कार

**डेशॉना बार्बर ने मिस यूएसए का खिताब जीता**

अमेरिकी सेना की लॉजिस्टिक कमांडर और आईटी एनालिस्ट डेशॉना बार्बर ने वर्ष 2016 का मिस यूएसए खिताब जीता है। लास वेगास में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने यह खिताब जीता है।

- मिस हवाई चेलसिया हार्डिन फर्स्ट और मिस जॉर्जिया इमानी जोवन डेविस दूसरी रनर अप रही।
- 26 वर्षीय बार्बर अब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगी।

**संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून रूस के "ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप" सम्मान से सम्मानित**

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून को "ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप" सम्मान से सम्मानित किया।

- बान को यह सम्मान शांति, दोस्ती, सहयोग और आपसी समझ को मजबूत बनाने में विशेष गुण के लिए दिया गया।

**भारतीय लेखक अखिल शर्मा अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य सम्मान से पुरस्कृत**

भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक अखिल शर्मा को उनके आत्मकथात्मक उपन्यास 'फैमिली लाइफ' के लिए 'अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।

- उन्हें पुरस्कार स्वरूप एक लाख यूरो (करीब 75 लाख रुपये) की राशि मिली जो कि अंग्रेजी के किसी भी उपन्यास के लिये सर्वाधिक है।

**गायक रॉड स्टीवर्ट को नाइटहुड**

गायक रॉड स्टीवर्ट को संगीत और चैरिटी के लिए अपनी सेवाओं के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वारा नाइटहुड की पदवी प्राप्त हुई है।

- 71 वर्षीय गायक, जिनका रिकॉर्डिंग कैरियर 50 साल तक पुराना है, वर्तमान में एक टूर पर हैं, जहां उन्होंने एक बड़ी भीड़ के सामने लाइव नाइटहुड मिलने की घोषणा की।

**पक्के टाइगर रिजर्व ने इण्डिया बायो डायवर्सिटी अवार्ड 2016 जीता**

पक्के टाइगर रिजर्व ने मुंबई में चार श्रेणियों में से एक 'इण्डिया बायो डायवर्सिटी अवार्ड 2016' प्राप्त किया है। यह पार्क अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में है।

- पक्के टाइगर रिजर्व का हॉर्नबिल नेस्ट एडोप्शन प्रोग्राम संकट ग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण श्रेणी के तहत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- ये पुरस्कार केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की संयुक्त पहल हैं।

**अपनी मेहनत के बल पर भारत की 2 कारोबारी महिलाएं फॉर्ब्स की लिस्ट में हुईं शुमार**

अपनी मेहनत के बल पर उद्यम क्षेत्र में नई ऊंचाईयों को छूने वाली अमेरिका की 60 सबसे धनी और सफल महिलाओं की फोर्ब्स-सूची में दो भारतीय मूल की हैं जो इनोवेशन और नई खोज के बल पर आगे बढ़ी हैं।

- भारत में जन्मी नीरजा सेठी को इस सूची में 16वां स्थान तथा जयश्री उल्लाल को 30वां स्थान मिला है।

- खुदके बल पर ऊंचाईयां छूने वाली अमेरिका की धनी महिलाओं की सूची में सबसे उपर डेयने हैंड्रिक हैं। वह एबीसी सप्लाई की मालिक हैं जो देश में छत और साइडिंग बनाने में काम आने वाले निर्माण सामग्री की सबसे बड़ी थोक डिस्ट्रिब्यूटर हैं। हैंड्रिक्स की संपत्ति इस समय 4.9 अरब डॉलर है।

### भारतीय बैंकर राघवन सीतारामन को ग्रीन इकॉनमी विज्ञनरी अवार्ड दिया गया

कतर आधारित भारतीय बैंकर राघवन सीतारामन को ग्रीन इकॉनमी विज्ञनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सीतारामन को इको-फ्रेंडली कार्यों द्वारा पिछले दो दशकों में ग्रीन इकॉनमी का विस्तार करने के लिए पुरस्कृत किया गया।

- उन्हें यह सम्मान रोम में आयोजित अरब बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग शिखर सम्मेलन में अरब बैंकों के संघ के अध्यक्ष, मोहम्मद जर्हाह अल सबा द्वारा प्रदान किया गया।

### प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

- हेरात में ऐतिहासिक अफगान-भारत मैत्री बांध के उद्घाटन के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया।
- अफगानिस्तान के नागरिकों के साथ-साथ विदेशी नागरिकों को उनकी सेवाओं की प्रशंसा में अफगान सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पदक के पीछे यह उल्लेख है - "निशान-ए दौलती गाजी आमिर अमानुल्लाह खान" अर्थात "राज्य आदेश गाजी आमिर अमानुल्लाह खान।"

### वी ओ चिदंबरनार बंदरगाह को लागत प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

वी ओ चिदंबरनार बंदरगाह को इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा श्रेष्ठ लागत प्रबंधन के लिए वर्ष 2015 के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। बंदरगाह को यह पुरस्कार लघु जनसेवा श्रेणी में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है।

- बंदरगाह ने लागत प्रबंधन 2015 के लिए 13वें राष्ट्रीय पुरस्कार में शिरकत की जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया।
- बंदरगाह को तीसरी बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पूर्व 2008 और 2012 में भी बंदरगाह इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुका है।

### सुदर्शन पटनायक ने पीपुल्स च्वाइस अवॉर्ड जीता

रेत पर कलाकृतियां उकेरने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बुल्गारिया के रूस शहर में आयोजित रेत कलाकृति विश्व चैम्पियनशिप 2016 में पीपुल्स च्वाइस का स्वर्ण पदक जीता है।

- सुदर्शन को यह अवॉर्ड उनकी रेत कलाकृति 'ड्रग्स किल्स स्पोर्ट्स' के लिए मिला। इससे संबंधित एक बयान में कहा गया है कि सुदर्शन को सर्वाधिक सैलानियों के वोट मिले।

### प्रणब मुखर्जी को आइवरी कोस्ट का सर्वोच्च सम्मान

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आइवरी कोस्ट पहुंचने पर देश के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय ग्रैंड क्रोइक्स से सम्मानित किया गया है।

- मुखर्जी को तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आइवरी कोस्ट पहुंचने पर सम्मानित किया गया।

### मागरिट एटवुड 2016 के पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित

कनाडा की उपन्यासकार और पर्यावरण कार्यकर्ता मागरिट एटवुड को 2016 के पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

- वह साहित्य के लिए आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार और प्रिंस ऑफ एस्टुरिएस पुरस्कार की भी विजेता है।
- उन्हें पांच बार बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और उपन्यास 'ब्लाइंड एसेसिन' के लिए एक बार जीत भी चुकी है।
- पेन पिंटर पुरस्कार एक वार्षिक अंग्रेजी साहित्यिक पुरस्कार है जिसे 2009 में शुरू किया गया था।
- इसे नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता नाटककार स्वर्गीय हेरॉल्ड पिंटर के सम्मान में शुरू किया गया था।

### भारतीय बैरिएट्रिक सर्जन शशांक एस शाह 'विवियन फॉसेका स्कॉलर अवार्ड- 2016' से सम्मानित

भारतीय बैरिएट्रिक सर्जन शशांक एस शाह अमेरिका की प्रतिष्ठित 'विवियन फॉसेका स्कॉलर अवार्ड- 2016' से सम्मानित किये गए।

- शाह को डायबिटीज के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अमेरिकी डायबिटीज एसोसिएशन ने उन्हें इस प्रतिष्ठित अमेरिकी पुरस्कार से सम्मानित किया है।

### भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच सैयद नईमुद्दीन, मोहन बागान रत्न के लिए नामांकित

मोहन बागान ने 15 जून 2016 को घोषणा की कि वह देश के द्रोणाचार्य फुटबॉल कोच सैयद नईमुद्दीन को मोहन बागान रत्न से सम्मानित करेंगे।

- नईमुद्दीन का चुनाव उनके द्वारा फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में क्लब एवं देश को दिए गये योगदान के कारण किया गया।
- वे पूर्व भारतीय खिलाड़ी एवं कोच हैं।
- खिलाड़ी के रूप में उन्होंने 1970 में खेले गये एशियन खेलों में भारतीय टीम की कप्तानी की तथा भारत को रजत पदक दिलाया।

### कर्नाटक बैंक को जमनालाल बजाज पुरस्कार

कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने CFBP (निष्पक्ष व्यापार आचरण के लिए परिषद) निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार हासिल किया है।

- बैंक को 'सेवा उद्यम - लार्ज' श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया है।
- महाबलेश्वर एमएस, बैंक के मुख्य महाप्रबंधक, ने मुंबई में अजय पीरामल, पीरामल समूह के अध्यक्ष से पुरस्कार प्राप्त किया।

### केरल पर्यटन ने पोलैंड में 'फिल्म एट' अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चार पुरस्कार जीते

केरल पर्यटन ने फिल्म महोत्सव 'फिल्म एट' के 11 वें संस्करण में चार पुरस्कार हासिल किये हैं। पोलैंड में यह फिल्म समारोह पर्यटन, कला और पारिस्थितिकी के लिए समर्पित है।

- तीन पुरस्कार एकल अभियान के लिए दिए गए थे।
- पर्यटन बोर्ड की विज्ञापन फिल्म 'द ग्रेट बेकवाटर्स ऑफ केरल' के लिए चौथा पुरस्कार 'सर्वश्रेष्ठ संपादन पुरस्कार' जीता, जिसमें पौराणिक अप्रवाही जीवन प्रदर्शित किया गया।

### शंघाई फिल्म फेस्टिवल में टॉप अवॉर्ड में दिखी 'तिथि' की धूम

कन्नड़ फिल्म 'तिथि' ने 19वें शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के एशिया न्यू टैलेंट अवॉर्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक का पुरस्कार अपने नाम किया है।

- निर्देशक राम रेड्डी की 'तिथि' तीन पीढ़ियों बारे में है जिसमें कबीले के सबसे वृद्ध की मौत पर प्रतिक्रिया दर्शाती है।

### प्रो. संजय मित्तल को जीडी बिड़ला पुरस्कार

आईआईटी-कानपुर के प्रोफेसर संजय मित्तल को वर्ष 2015 के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पद्मिनी जी. डी. बिरला पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं।

- यांत्रिकी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार के साथ महत्वपूर्ण अवार्ड्स मिल चुके हैं।
- वह इंडियन इंस्टिट्यूट की प्रौद्योगिकी (आईआईटी), कानपुर में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के विभाग में प्रोफेसर हैं।

### भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी (आईफा) पुरस्कार 2016

17 वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी (आईफा) पुरस्कार 2016 मैड्रिड, स्पेन में 25 जून 2016 को प्रस्तुत किए गए।



- पुरस्कार 2015 की सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फिल्मों को सम्मानित करने के लिये इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी द्वारा प्रस्तुत किए गए।

पुरस्कार	विजेता
सर्वश्रेष्ठ फिल्म	बजरंगी भाईजान
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक	संजय लीला भंसाली बाजीराव मस्तानी के लिए
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता	बाजीराव मस्तानी के लिए रणवीर सिंह
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री	पीकू के लिए दीपिका पादुकोण
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता	दिल धड़कने दो के लिए अनिल कपूर
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री	बाजीराव मस्तानी के लिए प्रियंका चोपड़ा
बेस्ट डेब्यू अभिनेता	मसान के लिए विकी कौशल
बेस्ट फीमेल डेब्यू	दम लगा के हईशा के लिए भूमि पेढनेकर
सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता	तनु वेड्स मनु रिटर्न के लिए दीपक दोब्रियल
सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका	एनएच 10 के लिए दर्शन कुमार
सर्वश्रेष्ठ कहानी	पीकू के लिए जूही चतुर्वेदी
बेस्ट डेब्यू युगल	सूरज पंचोली और अथिया शेटी हीरो के लिए
वुमेन ऑफ दी ईयर का आईफा पुरस्कार:	प्रियंका चोपड़ा
सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन:	अमाल मलिक, मीत ब्रदर्स अंजान, अंकित तिवारी रॉय के लिए
बेस्ट गीतकार	दम लगा हईशा के लिए वरुण ग्रोवर
सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायक (पुरुष)	पापोन
सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका	मोनाली ठाकुर

### ब्रिटेन में श्री श्री रविशंकर को मानद फैलोशिप

नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एल्युमनाई यूनियन (एनआईएसएयू) ने ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के एक संगठन ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को विश्व शांति और संस्कृति के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मानद फैलोशिप से सम्मानित किया है।

- एनआईएसएयू ने एक बयान में कहा, 'समाज की बेहतरी, विकास एवं परिवर्तन की दिशा में प्रयासरत एनआईएसएयू विश्व शांति को आगे बढ़ाने और हिंसा मुक्त समाज की दिशा में काम करने, वैश्विक संदर्भ में योग, ध्यान और आध्यात्मिक अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए समाज और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री श्री रविशंकर को सम्मानित करते हुए गौरवांविता महसूस कर रहा है।'

### भारतीय व्यवसायी जुबैदा बाई यूएन में सम्मानित

भारतीय समाजसेवी जुबैदा बाई को जून 2016 के चौथे सप्ताह संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें टॉप 10 स्थानीय एसडीजी “2016 ग्लोबल कॉम्पैक्ट एसडीजी पायनियर्स” में शामिल किया गया।

- 2016 के लोकल एसडीजी पायनियर्स का उद्देश्य स्थानीय सामाजिक उद्यमियों को बढ़ावा देना है।
- स्थानीय एसडीजी पायनियर्स प्रोग्राम उन लोगों को सम्मानित करता है जो सतत विकास लक्ष्यों द्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण हित में कार्यरत हैं।

**ग्रैंडमास्टर हरिका द्रोणवली ने ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता**

ग्रैंडमास्टर हरिका द्रोणवली ने कजाकिस्तान में यूरासियन ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार हासिल किया है।

- भारत की नंबर दो खिलाड़ी को 2500 डॉलर और 60 ईएलओ अंक मिले और इससे वह फिर से शीर्ष दस में शामिल हो गई हैं।
- हरिका ने जून 2016 हंगरी में जलाकारोस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में भी सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार हासिल किया था। वे क्लासिकल रैंकिंग सूची में नौवें स्थान पर पहुंच गई हैं।
- ब्लिट्ज टूर्नामेंट में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी चीन की होउ यिफान सहित चोटी की खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। हरिका और यिफान ने टूर्नामेंट के आखिर में समान 12.5 अंक बनाए थे और उन्होंने टाईब्रेकर में जीत दर्ज की थी।

## खेल

**शारापोवा को पछाड़ दुनिया की सबसे अमीर महिला खिलाड़ी बनी सेरेना**

फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार सेरेना विलियम्स मारिया शारापोवा को पछाड़कर दुनिया की सबसे अमीर महिला खिलाड़ी बन गईं।

- सेरेना ने पिछले 12 महीने में 29.9 मिलियन डालर कमाये।
- अमेरिकी मिश्रित मार्शल आर्ट स्टार रोंडा राउसी 14 मिलियन डालर के साथ तीसरे नंबर पर हैं।

**जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा लखनऊ**

अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) ने यह जानकारी दी कि इसी साल दिसंबर में होने वाले जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी लखनऊ करेगा।

- आठ दिसंबर से 18 दिसंबर तक खेले जाने वाले इस विश्व कप में कुल 16 टीमों हिस्सा लेंगी।
- भारत के अलावा अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, मिस्र, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड्स, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और स्पेन की टीमों इस विश्व कप में हिस्सा लेंगी।
- महिला जूनियर विश्व कप 24 नवंबर से चार दिसंबर तक चिली के सेंटियागो में खेला जाएगा। भारत इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा।

### टिटू लुका ने एथलेटिक्स मीट में 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता

टिटू लुका ने चेक गणराज्य के प्राग में जोसफ ओडलोजिल मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में 800 मीटर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है।

- एशियाई चैम्पियन 2013 विश्व युवा चैम्पियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता आइसलैंड की अनिता से पीछे रही जिसने दो मिनट 00.54 सेकंड का समय लिया है। टिटू ने 2:00.61 सेकंड का समय लिया।
- टिटू अभी सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों की सूची में 30वें स्थान पर है।

### ईडन गार्ड्स में होगा पहला गुलाबी गेंद डे-नाइट टेस्ट

टेस्ट क्रिकेट प्रारूप को और लोकप्रिय बनाने के लिए गुलाबी गेंद से दिन-रात्रि टेस्ट का पहला मैच देश में कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्ड्स मैदान पर आयोजित किया जाएगा।

- पश्चिम बंगाल के घरेलू टूर्नामेंट सुपर लीग का फाइनल 17 से 20 जून तक फ्लड लाइट में खेला जाएगा। इसमें कूकाबूरा गेंद इस्तेमाल की जायेगी।

### शारापोवा पर 2 साल का बैन

अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन ने रूसी खिलाड़ी मारिया शारापोवा पर दो साल के लिए पाबंदी लगा दी है। ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद उन पर ये प्रतिबंध लगाया गया है।

- इससे पहले मार्च में भी उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन में उन्हें प्रतिबंधित मेल्डोनियम लेने का दोषी पाया गया था।
- शारापोवा ने कहा है कि वो 29 जनवरी से लागू होने वाले इस बैन के खिलाफ अपील करेंगी।

### सबसे ज्यादा कमाने वाले एथलीट बने रोनाल्डो, फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप पर

मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं। फोर्ब्स ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप-100 एथलीट्स की जो लिस्ट जारी की, उसमें रोनाल्डो नंबर वन हैं।

- फोर्ब्स के मुताबिक स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो की कमाई 88 मिलियन डॉलर यानि कि करीब 587 करोड़ रुपए है। वह लिस्ट में टॉप करने वाले पहले फुटबालर है।

### साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज़ जीती

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने 12 जून 2016 को चीन की सून यू को 11-21,21-14,21-19 से हराते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता।

- 7.5 लाख डॉलर इनाम वाला यह टूर्नामेंट साइना का इस वर्ष का पहला खिताब था।
- साइना ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। इससे पहले वर्ष 2014 में भी उन्होंने यह खिताब जीता था।

### संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिना महिला वाटर पोलो विश्व सुपर लीग फाइनल जीता

संयुक्त राज्य अमेरिका सीनियर राष्ट्रीय टीम (महिला) ने फिना महिला वाटर पोलो विश्व लीग सुपर फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। चीन के शंघाई में आयोजित मैच में टीम ने चैंपियनशिप मैच में स्पेन को 13-9 से पराजित किया।

- दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने चीन को 11-3 से हराकर कांस्य पदक जीता।
- फिना वाटर पोलो विश्व लीग, फिना द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाटर पोलो लीग है। जो प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है।
- लीग में पुरुषों और महिलाओं के खेलने हेतु महाद्वीपीय टूर्नामेंट की सुविधा है। जिसमें से शीर्ष सुपर टीमों को अंतिम लीग मैच में खिलाया जाता है। चैंपियन टीम का ताज पहना कर सम्मानित किया जाता है।
- वर्ष 2000 में आयोजित ओलंपिक खेलों में वाटर पोलो लीग की दुनिया भर में लोकप्रियता के बाद पुरुषों का लीग खेल 2002 में आरम्भ हुआ।
- महिलाओं की इस खेल में बढ़ती रुचि के आधार पर 2004 में महिलाओं के लीग का आरम्भ किया गया।

### 10 हजार रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने कुक

इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान एलेस्टर कुक 10 हजार रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं।

- इसके साथ ही कुक 10 हजार टेस्ट रन बनाने वाले 12वें बल्लेबाज भी बन गए हैं।
- कुक ने 31 साल 157 दिन में 10 हजार रन बनाये। इससे पहले यह रिकार्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। उन्होंने 31 साल 326 दिन में अपने 10 हजार रन पूरे किए थे।

### श्रीलंका के नुवान कुलासेकरा ने लिया टेस्ट क्रिकेट से संन्यास

श्रीलंकाई तेज़ गेंदबाज़ नुवान कुलासेकरा ने सीमित ओवर क्रिकेट पर ध्यान देने के लिये टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है।

- अप्रैल 2005 में पदार्पण करने वाले 33 साल के कुलासेकरा ने श्रीलंका के लिए 21 टेस्ट मैच ही खेले हैं, और 21 टेस्ट मैचों में इस स्विंग गेंदबाज़ ने 48 विकेट झटके हैं।
- घरेलू क्रिकेट में इन्हें 2002-03 के सत्र में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ का खिताब मिला था।

### टेस्ट मैचों में 2019 से शुरू होगा लीग सिस्टम

ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव डेव रिचर्डसन ने चैंपियंस ट्रॉफी के आधिकारिक लॉन्च के दौरान कहा कि 2019 के अंत तक टेस्ट मैचों में लीग सिस्टम की शुरुआत होगी।

- इससे द्विपक्षीय श्रंखला अधिक सार्थक बन सकेगी।
- फ़िलहाल टेस्ट क्रिकेट में रैंकिंग सिस्टम लागू है और हर टीम को एक सीरीज के परिणाम पर फायदा या नुकसान होता है।

### फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पर

अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (फीफा) की ओर से जारी ताजा विश्व रैंकिंग में दो बार का विश्व चैंपियन अर्जेंटीना शीर्ष पर बरकरार है फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना के अलावा बेल्जियम भी दूसरे व कोलम्बिया तीसरे स्थान नंबर पर कायम है।

- गत विश्व चैंपियन जर्मनी चौथे तथा स्पेन छठे पायदान पर पहुंच गया है।
- भारत अब 163वें पायदान पर खिसक गया है व ईंग्लैण्ड की जगह ऑस्ट्रिया टॉप 10 में आ गया है।

### आईबीसी को राष्ट्रमंडल मुक्केबाजी परिषद से मान्यता मिली

राष्ट्रमंडल मुक्केबाजी परिषद ने भारत में पेशेवर मुक्केबाजी के लिये लाईसेंस इकाई के लिए भारतीय मुक्केबाजी परिषद (आईबीसी) को अपनी मान्यता दे दी हैं।

- सीबीसी अब इस वर्ष दिसंबर में होने वाली अपनी आम सभा की बैठक में राजा को निदेशक के रूप में पंजीकृत कर लेगा।

### फ्रेंच ओपन 2016

खिताब	विजेता	उपविजेता	परिणाम
-------	--------	----------	--------

पुरुष एकल	नोवाक जोकोविक	एंडी मरे	3-6, 6-1, 6-2, 6-4
महिला एकल	गार्विन मुगुरुजा	सेरेना विलियम्स	7-5 6-4
मिश्रित युगल	मार्टिना हिंगिस और लिएंडर पेस	सानिया मिर्जा और इवान डोडिग	4-6, 6-4, 10-8
पुरुष युगल	फेलिसियानो लोपेज और मार्क लोपेज	बाॅब और माइक ब्रायन	6-4 6-7 6-3
महिला युगल	कैरोलीन गार्सिया और क्रिस्टिना मलादेनोविक	एकाटेरिना मकारोवा और एलेना वेस्नीना	6-3 2-6 6-4

### लुइस हैमिल्टन ने कनाडा ग्रं प्रि 2016 फॉर्मूला वन का खिताब जीता

मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने रोमांचक मुकाबले में सेबेस्टियन वीटल को पांच सेकेंड से पछाड़कर कनाडा ग्रं प्रि फॉर्मूला वन का खिताब जीत लिया।

- हैमिल्टन ने कनाडा में पांचवीं बार ट्रॉफी जीती। उन्होंने इससे पहले 2007, 2010, 2012 और 2015 में भी खिताब जीता था।

### भारतीय पुरुष की 4x400मी रिले टीम ने 18 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा

भारतीय पुरुष 4x400 मी रिले टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्प्रिंट और रिले टीम कप में तीन मिनट 02.17 सेकेंड का समय में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इस तरह उन्होंने बैंकाक में 1998 एशियाई खेलों में बनाये गये पिछले तीन मिनट 02.62 सेकेंड के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

- भारतीय महिला 4x400मी रिले टीम ने 3:30:16 सेकेंड का समय निकाला। मौजूदा एशियाई खेलों की चैम्पियन और रिकॉर्डधारी भारतीय टीम इस तरह विश्व रैंकिंग में 12वें नंबर पर पहुंच गयी है जिससे वह 2016 ओलंपिक खेलों के क्वालीफिकेशन के लिये मजबूत दावेदार के रूप में उभर रही है।

### 'अ न्यू वर्ल्ड' - रियो ओलंपिक का आधिकारिक स्लोगन

रियो 2016 आयोजन समिति ने दक्षिण अमेरिका में पहली बार होने वाले ओलंपिक और पैरालम्पिक खेलों के लिए 'अ न्यू वर्ल्ड' को आधिकारिक स्लोगन घोषित किया है।

- इसके अलावा चार साल में एक बार होने वाले खेलों के महाकुम्भ के शुरू होने से 52 दिनों पहले पदकों का भी अनावरण किया गया।
- ओलंपिक मशाल, पदक और शुभंकर के साथ-साथ, स्लोगन प्रत्येक ओलंपिक खेलों की अनूठी पहचान बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।

### ऑस्ट्रेलिया ने हीरो हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी- 2016 का खिताब जीता

ऑस्ट्रेलिया ने लंदन में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पहली बार सिल्वर मेडल हासिल करने में सफल रहा।

- निर्धारित समय तक दोनों टीमों गोल नहीं कर सकी जिसके बाद शूटआउट हुआ। निर्णायक शूटआउट में भारत विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से फाइनल मैच 1-3 के अंतर से हार गया। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी का 14वीं बार चैंपियन बना।

### भारत ने तीरंदाज़ी विश्व कप में रजत पदक जीता

भारत की मिक्स टीम दीपिका कुमारी एवं अतानु दास ने तुर्की स्थित अंताल्या में आयोजित तीरंदाज़ी विश्व कप में रजत पदक जीता।

- कोंयालती बीच पार्क में आयोजित फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम एवं दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबले का परिणाम 1-5 रहा।
- भारतीय टीम कोरिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त चोई मिसुन एवं कु बोचन से 0-2 से पिछड़ गयी लेकिन फाइनल में भारत ने 1-5 स्कोर हासिल किया।
- छठी वरीयता प्राप्त भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त मौरो नेस्पोली एवं गुएनदलिना सतोंरी को सीधे सेटों में 5-1 से हराया।
- इसके अतिरिक्त महिला टीम में दीपिका कुमारी, बोम्बाल्या देवी एवं लक्ष्मीरानी माझी ने इटली की टीम के साथ खेलते हुए 1-5 स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता।

### मर्सिडीज के चालक निको रोसबर्ग ने यूरोपीय 2016 फॉर्मूला 1 ग्रां प्री जीती

जर्मनी के निको रोसबर्ग ने बाकू, अजरबैजान में आयोजित यूरोपीय ग्रां प्री फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप जीत ली।

- खिताब जीतने के लिए, मर्सिडीज चालक ने फाइनल दौड़ में जर्मनी के फेरारी ड्राइवर सेबेस्टियन वेट्टल को पीछे छोड़ा।
- इस चैंपियनशिप में, रोसबर्ग ने दूसरा कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया। उन से पहले, केवल लुईस हैमिल्टन, मिका हकिनेन, जैक ब्रैबहम और जुआन मैनुअल फेंगिओ ही इस दुर्लभ उपलब्धि को हासिल कर पाये हैं।

### एंडी मरे ने मिलोस राओनिक को हराकर रिकॉर्ड पांचवीं बार क्वींस खिताब जीता

ब्रिटेन के एंडी मरे मिलोस राओनिक को हराकर क्वींस क्लब खिताब पांच बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गये हैं।

- राओनिक मरे से एक सेट और 3-0 थे लेकिन मरे इस सप्ताह उनकी सर्विस तोड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।

- शीर्ष वरीय और गत चैम्पियन मरे ने मैच 6-7 (5-7), 6-4, 6-3 से जीत लिया।
- मरे पांच एगॉन चैम्पियनशिप खिताब के साथ जॉन मेकनरो, बोरिस बेकर और रॉय एमरसन की जैसे खिलाड़ियों से आगे निकल गये हैं।

### 106 साल की बुजुर्ग ने थामी ओलंपिक मशाल, बना नया कीर्तिमान

एक्सट्रीम ग्रैनी के नाम से मशहूर ऐडा जेमान्क्यू मकापा शहर में ओलंपिक मशाल थामने वाली सर्वाधिक उम्रदराज शख्स बन गईं।

- जेमान्क्यू ने एलेक्जेंडर काप्तरेको का रिकॉर्ड तोड़ा। एलेक्जेंडर काप्तरेको ने 2014 सोची शीतकालीन ओलंपिक मशाल रिले में हिस्सा लिया था। एलेक्जेंडर की उम्र 101 वर्ष थी।

### BCCI ने गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित 3 को किया सस्पेंड

बीसीसीआई ने जीसीए के नाम पर फर्जी बैंक खाता खोलने और बीसीसीआई का चेक भुनाने के आरोप में गिरफ्तार गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के तीन आला अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है।

- जीसीए के नाम पर फर्जी बैंक खाता खोलने और बीसीसीआई का 3.13 करोड़ रुपये का चेक भुनाने के आरोप में पुलिस पहले ही अध्यक्ष चेतन देसाई, सचिव विनोद फडके और खजांची अकबर मुल्ला को गिरफ्तार कर चुकी है।

### अंजू बाँबी जॉर्ज ने केरल खेल परिषद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया

विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भारत की एकमात्र पदक विजेता अंजू बाँबी जॉर्ज ने केरल खेल परिषद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। अंजू के अतिरिक्त 13 अन्य सदस्यों ने भी इस्तीफा दिया।

- अंजू बाँबी जॉर्ज ने 9 जून 2016 को केरल के खेल मंत्री ईपी नारायण पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अंजू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। नयी सरकार के आने के बाद से खेल परिषद पर दबाव बनाया जा रहा था।

### बीसीसीआई का एलान, हर साल सितम्बर में होगा मिनी आईपीएल

बीसीसीआई ने प्रत्येक सितंबर में छोटे आईपीएल के आयोजन का फैसला किया है जो भारत से बाहर खेला जायेगा।

- बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस टूर्नामेंट में घरेलू या बाहरी मैच नहीं होंगे। दो सप्ताह के इस टूर्नामेंट में कम मैच खेले जाएंगे। प्रस्ताव है कि सभी आठ टीमों में मिनी आईपीएल में हिस्सा लें।
- टी20 चैम्पियंस लीग रद्द हो चुकी है इसके चलते क्रिकेट कैलेंडर में जगह बनाई जा सकती है। जगह पर अभी फैसला नहीं हुआ है लेकिन अमेरिका और यूएई भी एक विकल्प है।



### चिली ने अर्जेटीना को हराकर कोपा अमेरिका फुटबॉल खिताब जीता

चिली ने को अर्जेटीना को 4-2 से हराकर लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका खिताब जीता।

- दोनों टीमों द्वारा 90 मिनट के खेल में कोई गोल नहीं कर पाने पर पेनल्टी शूटआउट द्वारा निर्णय लिया गया। पेनल्टी शूटआउट में चिली ने अर्जेटीना को 4-2 से हराया।
- इसे पहले साउथ अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता था। यह अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसे राष्ट्रीय टीमों के बीच खेला जाता है। यह फुटबॉल के सबसे पुराने टूर्नामेंट में से एक है।
- इसमें दक्षिण अमेरिका से एक चैंपियन निर्धारित किया जाता है। वर्ष 1990 से इसमें उत्तर अमेरिका एवं एशिया से भी टीमों में भाग ले रही हैं।

### लियोनेल मैसी का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास

स्टार फुटबॉलर लियोनेल मैसी ने कोपा अमेरिका कप फाइनल की हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया।

- मैसी, पांच बार फीफा वर्ष के प्लेयर, चार चैंपियंस लीग खिताब और बार्सिलोना के साथ आठ स्पेनिश ला लीगा खिताब के विजेता हैं।
- मैसी ने 2005 में अर्जेटीना के लिए पदार्पणके बाद से 112 मैचों में 55 गोल किए।

### आर्टेमी पेनारिन ने 2015-2016 काल्डर मेमोरियल ट्रॉफी जीती

रूसी हॉकी विंगर आर्टेमी पेनारिन ने शिकागो ब्लैकहॉक्स के लिए खेलते हुए 2015-2016 काल्डर मेमोरियल ट्रॉफी जीती। घोषणा अमेरिका की राष्ट्रीय हॉकी लीग (NHL) द्वारा की गई।

- चयन प्रक्रिया में, पेनारिन सभी 150 मतपत्र पर वोट प्राप्त किये और 1258 मतदान अंक के साथ शीर्ष पर रहे।

### अर्जेटीना की महिला हॉकी टीम ने रिकार्ड सातवां चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता

अर्जेटीना की महिला हॉकी टीम ने फाइनल में मौजूदा विश्व और ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड पर 2-1 की जीत से रिकार्ड सातवां चैंपियंस ट्रॉफी खिताब अपनी झोली में डाला।

- नीदरलैंड ने हाफ टाइम के बाद इवा डि गोएडे के पेनल्टी कार्नर फ्लिक से किये गये गोल से वापसी करने की कोशिश की लेकिन अर्जेटीना ने उन्हें और गोल नहीं करने दिये और अपना लगातार तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी खिताब हासिल किया।

### नेशनल इंटर-स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हैदराबाद में शुरू

56 वीं नेशनल इंटर-स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हैदराबाद में शुरू हो गई है।

- 26 राज्यों से 264 महिलाओं सहित 744 एथलीट पांच दिवसिय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
- एक श्रीलंकाई रिले टीम भी रियो क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेगी।

### संजीव राजपूत ने आईएसएसएफ विश्व कप में रजत पदक जीता

रियो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके निशानेबाज संजीव राजपूत ने अजरबेजान के बाकु में आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल श्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है।

- दो बार ओलम्पिक खेल चुके संजीव ने रियो ओलम्पिक से पहले आयोजित अंतिम विश्व कप फाइनल में 456.9 अंक जुटाए जो गोल्ड मेडल से मात्र 0.6 अंक कम है।
- क्रोएशिया के पीटर गोर्सा ने 457.5 अंकों के साथ स्वर्ण जीता जबकि कोरिया के हियोनजुन किम ने कांस्य पदक हासिल किया है।

## निधन

### शतरंज ग्रैंडमास्टर विक्टर कोर्चनोई का निधन

शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी विक्टर कोर्चनोई का स्विट्ज़रलैंड स्थित वोहलेन में निधन हो गया है। वे 85 वर्ष के थे।

- कोर्चनोई तीन विश्व चैंपियनशिप मैचों में खेले लेकिन वे हर मैच में एनाटोली कारपोव से हार गये। वे कभी विश्व विजेता नहीं बन पाए।
- उन्होंने सितम्बर 2006 में विश्व सीनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती।

### नेपाली राष्ट्रगान के संगीतकार अम्बर गुरुंग का निधन

नेपाल के वरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुंग का निधन हो गया है। वे 78 वर्ष के थे। गुरुंग नेपाली राष्ट्रगान के संगीतकार थे।

- गुरुंग ने वर्ष 2007 में नेपाल के राष्ट्रीय गान "सायु थुंगा फूलका हामी" गीत गाया। इसकी रचना ब्याकुल मैला ने की।

### वयोवृद्ध पत्रकार के. के. कात्याल का निधन

वयोवृद्ध पत्रकार के. के. कात्याल का संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 88 साल के थे।

- उन्होंने 'द स्टेट्समैन', 'द हिंदू' और 'हिंदुस्तान टाइम्स' के साथ काम किया था।
- कात्याल 'साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन' के साथ जुड़ गए थे और उसकी भारतीय इकाई के संस्थापक थे।

### केरल के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष टीएस जॉन का निधन

केरल के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष टीएस जॉन का अलापुझा में चेरताला के एक अस्पताल में निधन हो गया।

- जॉन केरल कांग्रेस सेक्यूलर के एक गुट के नेता थे। वह एके एंटनी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके थे।

### भाजपा विधायक राजेंद्र दादु का सड़क हादसे में निधन

मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेंद्र दादु का सड़क हादसे में निधन हो गया। वह 62 वर्ष के थे।

- भोपाल इन्दौर मार्ग पर सीहोर के नजदीक वे दुर्घटना का शिकार हो गए।
- बुरहानपुर की नेपालनगर विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक दादु भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल होने भोपाल आ रहे थे।

### आइस हॉकी के दिग्गज गॉर्डि होवे नहीं रहे

कनाडा के मशहूर आइस हॉकी खिलाड़ी गॉर्डि होवे का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। होवे को आइस हॉकी जगत के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक माना जाता है।

- उन्हें 'मिस्टर हॉकी' भी कहा जाता था। साल 1972 में उन्हें 'हॉकी हॉल ऑफ फेम' से भी सम्मानित किया गया।
- वह लगातार 21 वर्षों तक गोल करने वाले शीर्ष 10 खिलाड़ियों में शामिल थे। आइस हॉकी से 1980 में संन्यास लेने से पहले छह बार उन्हें सर्वाधिक बहुमूल्य खिलाड़ी के नाम से नवाजा गया।
- आइस हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी 2008 में 'एनएचएल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' पाने वाले पहले खिलाड़ी थे।

### कर्नाटक बैंक के पूर्व अध्यक्ष एमएस कृष्णा भट्ट का निधन

कर्नाटक बैंक के पूर्व अध्यक्ष एमएस कृष्णा भट्ट का मंगलुरु में निधन हो गया है। वह 78 साल के थे।

- कृष्णा 1970 में बैंक में शामिल हो गये थे, और 1989 में उन्हें महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया।
- कृष्णा भट्ट ने 1995 में दो साल की अवधि के लिए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला जिसे 2000 में और तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया था।

### वरिष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा का निधन

वरिष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा का दिल्ली में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे।

- मल्होत्रा ने संवाद समिति यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया से पत्रकारिता की शुरुआत की थी और बाद में विभिन्न समाचार पत्रों में अहम संपादकीय पदों पर रहे।

- वह वर्ष 1978-86 तक 'द टाइम्स ऑफ इंडिया', दिल्ली के संपादक रहे। इसके पहले उन्होंने 15 वर्षों तक 'द स्टेट्समैन' में काम किया।
- इंदर मल्होत्रा ने कई किताबें लिखी हैं जिनमें इंदिरा गांधी: ए पर्सनल एंड पोलिटिकल बायोग्राफी, डायनेस्टी ऑफ इंडिया एंड बियॉड प्रमुख हैं।

### वरिष्ठ थियेटर हस्ती अच्युत लहकार का निधन

थियेटर की वरिष्ठ हस्ती अच्युत लहकार का बारपेटा जिले में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से थियेटर की दुनिया में शोक की लहर है।

- 1931 में जन्मे लहकार बचपन से ही थियेटर की ओर आकर्षित थे।
- भ्रमयमान थियेटर के पुरोधा अच्युत लहकार कई दशकों तक अग्रणी बने रहे।

### इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान डोनाल्ड कार का निधन

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान डोनाल्ड कार का 89 वर्ष की उम्र में 12 जून को निधन हो गया।

- डोनाल्ड कार की पहचान क्रिकेट प्रशासक के रूप में अधिक रही, वह टेस्ट और काउंटी क्रिकेट बोर्ड के सचिव भी रहे।
- कार ने दो बार इंग्लैंड के लिये क्रिकेट खेला। 1951-52 के भारत दौरे पर वह आखिरी बार मद्रास में खेले थे।

### भाजपा के वरिष्ठ नेता रूद्र माधव राय का निधन

कंधमाल से पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता रूद्र माधव राय का एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे।

- वह दासपल्ला विधानसभा क्षेत्र से ओडिशा विधानसभा के लिये 1990 से 1995 तक 1995 से 1997 के लिए और फिर 2004 से 2009 तक तीन बार चुने गए थे।

### कॉमेडियन एक्टर रज्जाक खान का दिल का दौरा पड़ने से निधन

बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन एक्टर रज्जाक खान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है।

- रज्जाक ने सलमान खान के साथ 'हैलो ब्रदर', शाहरुख खान के साथ 'बादशाह' और उनके अलावा हंगामा, 'हेरा फेरी', 'राजा हिंदुस्तानी', 'सहित कई फिल्मों में कॉमेडी भूमिका निभाई है।

### ईडन गार्ड्स के पूर्व क्यूरेटर प्रबीर मुखर्जी का निधन

बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) के पूर्व मुख्य क्यूरेटर प्रवीर मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद बीती रात शहर के अस्पताल में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। वे लिवर की बीमारी और तनाव से पीड़ित थे।

- उन्होंने 1979 में बंगाल और वेस्ट जोन टीम मैनेजर के रूप में कैब के साथ काम करना शुरू किया था। उन्होंने 1987 में ईडन गार्डन में हुए वर्ल्डकप मैच की पिच तैयार की थी। वे लगातार 25 सालों तक ईडन गार्डन के पिच क्यूरेटर रहे।
- मुखर्जी ने आखिरी बार पिछले साल अक्टूबर में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए तीसरे टी-20 मैच का पिच तैयार किया था।

### दुनिया के दिग्गज बॉक्सर मोहम्मद अली का निधन

महान बॉक्सर मोहम्मद अली का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। मोहम्मद अली को सांस की तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया था।

- तीन दशक तक बॉक्सिंग की रिंग में अपना जलवा बिखेरने वाले अली को पिछले दिनों अरिजोना स्थित फॉनिक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
- पिछले कुछ वर्षों में अली को कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले उन्हें 2015 के शुरू में पेशाब संबंधी परेशानी के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।

### अभिनेता-निर्देशक बालू आनंद का निधन

तमिल अभिनेता एवं निर्देशक बालू आनंद का कोयंबटूर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 61 वर्ष के थे।

- करीब 100 फिल्मों में अभिनय किया जिनमें 'अन्नागर', 'पिस्ता', 'अंबे शिवम' उनकी मशहूर फिल्मों में से हैं।

### वयोवृद्ध अभिनेता सुलभा देशपांडे का निधन

प्रख्यात अभिनेत्री और रंगकर्मी सुलभा देशपांडे का मुंबई में जून 2016 को निधन हो गया। वह 79 वर्ष की थीं।

- देशपांडे को 1970 के दशक में प्रायोगिक थियेटर की अग्रदूतों में से एक माना जाता था।

### भारत के पहले मिस्टर यूनिवर्स मनोहर आइच का निधन

पॉकेट हरक्यूलिस के नाम से प्रसिद्ध बॉडीबिल्डर मनोहर आइच का कोलकाता में निधन हो गया। वे 104 वर्ष के थे।

- वर्ष 1952 में मनोहर आइच, स्वतंत्र भारत के पहले मिस्टर यूनिवर्स बने थे। चार फुट 11 इंच की लंबाई वाले मनोहर आइच को पॉकेट हरक्यूलिस भी कहा जाता था।
- एशियन गेम्स में तीन बार स्वर्ण पदक जीतने वाले आइच का सिद्धांत, 'व्यायाम करो और खुश रहो' का था।

### वयोवृद्ध साहित्यकार मुद्राराक्षस का निधन

बहुमुखी प्रतिभा के धनी वयोवृद्ध साहित्यकार मुद्राराक्षस का लम्बी बीमारी के बाद लखनऊ में निधन हो गया। वे 83 साल के थे।

- उनका जन्म 21 जून, 1933 में लखनऊ के पास बेहटा गांव में हुआ था।
- वह अनुव्रत, कलकत्ता आधारित पत्रिका के संपादक थे।
- उन्होंने 1962 से 1976 तक ऑल इंडिया रेडियो में संपादक के रूप में काम किया।

### असम कांग्रेस प्रमुख अंजन दत्ता का निधन

असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अंजन दत्ता का हृदय गति रुक जाने से एम्स में निधन हो गया। दत्ता (64) को 18 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और पल्मोनरी विभाग में उनका इलाज चल रहा था।

- दत्ता असम के शिवसागर जिले में 13 अप्रैल को 1952 में पैदा हुए और अमगुरी निर्वाचन क्षेत्र से तीन बार विधायक रहे थे। उन्होंने मंत्री और राज्य विधान सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था।

### उड़िया अदाकारा मणिमाला देवी का निधन

उड़िया फिल्मों की अदाकारा मणिमाला देवी का लंबी बीमारी के बाद एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 86 वर्ष की थीं।

1960 के दशक में उन्होंने विभिन्न फीचर फिल्मों तथा नाटकों में काम करते हुए उड़िया फिल्म जगत पर राज किया किया।

### अभिनेत्री एन मॉर्गन गिलबर्ट का निधन

स्टार अभिनेत्री एन मॉर्गन गिलबर्ट का कैंसर के कारण निधन हो गया है। वह 87 वर्ष की थीं।

- गिलबर्ट ने 1960 के दशक में टीवी करियर की शुरूआत की थी। उन्होंने 'द ड्रीम ऑफ जेनी', 'माई श्री सन्स', 'द अल्फ्रेड हिचकॉक आवर', 'द प्रेट्रिज फैमिली', 'लव', 'अमेरिकन स्टाइल' और 'द न्यू एंडी ग्रिफिथ शो' जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में काम किया।

### प्रख्यात शिक्षाविद् जेपियार का निधन

राजनीतिज्ञ से शिक्षाविद् बने एवं जेपियार एजुकेशनल ट्रस्ट के संस्थापक जेपियार का चेन्नई में निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे।

- उनका नाम जेसादीमई पंगिराज था। उन्हें तमिलनाडु में प्राइवेट इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना करने का श्रेय जाता है। वे सत्याबामा यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति थे।

### तेलंगाना के लोक गीतकार गुडा अन्जैया का निधन

तेलंगाना लोकप्रिय लोक कवि और गीतकार गुडा अन्जैया का बीमारी के कारण हैदराबाद में निधन हो गया। वह 61 वर्ष के थे।

- उनका जन्म 1955 में आदिलाबाद जिले में डांडेपल्ली मंडल के लिंगापुरम् गांव में हुआ था।

### मशहूर क्रिज मास्टर नील ओ ब्रायन का कोलकाता में निधन

मशहूर क्रिज मास्टर नील ओ ब्रायन का 24 जून को कोलकाता में निधन हो गया।

- पूर्व लोकसभा सदस्य नील एक जाने-माने शिक्षाविद् के तौर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए तीन बार एंग्लो इंडियन विधायक रूप में मनोनीत किए गए।
- वे काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआइएससीई) के अध्यक्ष के साथ प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, भारत के प्रबंध निदेशक भी रह चुके थे।

### प्रसिद्ध मलयालम थिएटर कलाकार कावलम नारायण पणिक्कर का निधन

वयोवृद्ध मलयालम थिएटर कलाकार और कवि कावलम नारायण पणिक्कर का तिरुवनंतपुरम, केरल में 26 जून को निधन हो गया। वह वर्ष के 88 थे।

- 1961 में, उन्हें केरल संगीत नाटक अकादमी के सचिव के रूप में मनोनीत किया गया।
- उन्होंने 26 से अधिक मलयालम नाटक, कई शास्त्रीय संस्कृत नाटक लिखे हैं।

### टाइटन फाउंडर देसाई का निधन

टाइटन घड़ियों के फाउंडर जर्जिज देसाई का निधन हो गया। वो 79 वर्ष के थे और डेंगू से ग्रसित थे। उनका इलाज मनिपाल अस्पताल बैंगलुरु में चल रहा था।

- 1986 में टाइटन की स्थापना से पहले उन्होंने टाटा प्रेस, टाटा केमिकल्स, और ताज होटल के साथ काम किया।
- घड़ियों में सफलता के साथ, उन्होंने टाटा की मंजूरी से तनिष्क, जो गहनों का एक विश्वसनीय ब्रांड है और भारत का सबसे बड़ा आभूषण फर्म है, शुरू किया।

### प्रसिद्ध कलाकर के जी सुब्रह्मण्यम का निधन

भारतीय आधुनिक कला के प्रणेताओं में शामिल प्रसिद्ध कलाकार के जी सुब्रह्मण्यम का वडोदरा में 92 साल की उम्र में निधन हो गया।

- छह दशक से ज्यादा लंबे करियर में बहुआयामी प्रतिभा के धनी सुब्रह्मण्यम ने चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार का किरदार जिया और बच्चों की किताबें भी लिखीं।

## पुस्तकें

**डॉ के पी माथुर द्वारा लिखित द अनसीन इंदिरा गांधी का लोकार्पण**

डॉ के पी माथुर द्वारा लिखित पुस्तक द अनसीन इंदिरा गांधी का मई 2016 को लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक कोणार्क प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गयी।

- इसमें उनके जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है: 1971 बांग्लादेश युद्ध, पोखरण परमाणु परीक्षण 1974, आपातकाल की घोषणा, संजय गांधी की मृत्यु एवं मेनका गांधी द्वारा परिवार से पृथक होने के कारण।
- पुस्तक में इंदिरा गांधी के इंग्लैंड की पूर्व प्रधानमंत्री मारग्रेट थैचर से संबंधों पर भी प्रकाश डाला गया है।
- डॉ माथुर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निजी चिकित्सक थे। वे इस पद पर लगभग 20 वर्ष तक, 1984 में उनके देहावसान तक, उनकी सेवा में रहे।

**एम के रसगोत्रा द्वारा लिखित ए लाइफ इन डिप्लोमेसी**

पुस्तक ए लाइफ इन डिप्लोमेसी जून 2016 के तीसरे सप्ताह चर्चा में थी। यह पुस्तक पूर्व भारतीय राजनयिक महाराज कृष्णा रसगोत्रा द्वारा लिखी गयी है।

- यह पुस्तक भारतीय कूटनीति के व्यक्तित्व और नीतियों के अंदरूनी पहलुओं को उजागर करती है।
- इस पुस्तक में श्रीलंका में हुई जातीय हिंसा, पिछले वर्ष का शीत युद्ध, सार्क के गठन हेतु की गयी बातचीत, इंदिरा गांधी हत्याकांड एवं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में चर्चा की गयी है।

**प्रधानमंत्री ने 'द बर्ड्स ऑफ बन्नी ग्रासलैंड' पुस्तक का विमोचन किया**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में 'द बर्ड्स ऑफ बन्नी ग्रासलैंड' नामक पुस्तक का विमोचन किया है।

- यह पुस्तक गुजरात में कच्छ के बन्नी क्षेत्र में पाए जाने वाली पक्षियों की 250 प्रजातियों पर किए गए शोध कार्यों का संग्रह है।



- प्रधानमंत्री को यह पुस्तक गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी (जीयूआईडीई) के वैज्ञानिकों ने भेंट की।
- गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी भुज में है। यह संस्थान पिछले 15 साल से अधिक समय से पौधों, पक्षियों और कच्छ के रन में मौजूद समुद्री जीवन के बारे में अध्ययन कर रहा है।